



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3—दिसम्बर 9, 2011 (अग्रहायण 12, 1933)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2011 (AGRAHAYANA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

सं. 553, दिनांक 2 नवम्बर 2011—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टि के रैंक में

वेंकटेश पी (टीए-42797), इन्फैन्ट्री, 19 फरवरी 2011

संदीप भुकेर (टीए-42798), इन्फैन्ट्री, 25 फरवरी 2011

शोभित गुप्ता (टीए-42777), इंजीनियर टीए, 10 सितम्बर 2010
(पूर्वाह)

संजय प्रियदर्शनम (टीए-42778), इंजीनियर टीए, 11 सितम्बर 2010
(पूर्वाह)

दीपक गुप्ता (टीए-42763), इंजीनियर टीए, 12 अप्रैल 2010 (पूर्वाह)

अरुण कुमार पहाड़िया (टीए-42772), इंजीनियर टीए, 03 जुलाई 2009 (अपराह)

आनन्द शंकर (टीए-42773), इंजीनियर टीए, 09 जुलाई 2009 (पूर्वाह)

प्रभाकर पंडित (टीए-42774), इंजीनियर टीए, 15 सितम्बर 2009
(पूर्वाह)

कुलदीप सिंह गुसाई (टीए-42775), इंजीनियर टीए, 07 दिसम्बर 2009 (पूर्वाह)

राजकुमार पटेल (टीए-42776), इंजीनियर टीए, 23 दिसम्बर 2009
(पूर्वाह)

वी राजाराम
अवर सचिव

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

अल्प अवधि कमीशन

सं. 554, दिनांक 2 नवम्बर 2011—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586 डी(मेडिकल)

दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 05 मार्च 2010 (बीएससी नर्सिंग अधिकारियों के लिए वरिष्ठता, वेतनमान एवं पदोन्नति 05 मार्च 2009) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं :-

लेफ्टि परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा जन्म तिथि

लेफ्टि सारन्या वी (एनएस-22274एल), 01 मार्च 1987

लेफ्टि एल आगथ शालिनी (एनएस-22276डब्ल्यू), 21 जुलाई 1987

लेफ्टि प्रोनिता दास (एनएस-22277वाई), 03 अक्टूबर 1982

लेफ्टि एस नागज्योति (एनएस-22278एफ), 25 मई 1987

लेफ्टि सुब्बुथई एस (एनएस-22279के), 10 फरवरी 1984

लेफ्टि पॉल शाइनी मैथ्यू (एनएस-22280वाई), 18 मई 1985

लेफ्टि अस्वथी दास (एनएस-22281एफ), 29 अप्रैल 1987

लेफ्टि सोनिया (एनएस-22282के), 22 फरवरी 1987

लेफ्टि अखिलन्देशवरी मथियालगन (एनएस-22283एम), 15 जुलाई 1986

लेफ्टि हेमलता बी (एनएस-22284पी), 21 मई 1988

लेफ्टि मन्जु भार्गवी एस (एनएस-22285एक्स), 19 नवम्बर 1984

लेफ्टि मालती एम (एनएस-22286ए), 29 जुलाई 1986

लेफ्टि नीतू मैथ्यू (एनएस-22287एच), 20 फरवरी 1987

लेफ्टि आर सुनीता (एनएस-22288एल), 28 फरवरी 1976

लेफ्टि शिल्पा जे (एनएस-22289एन), 19 मई 1985

लेफ्टि गाउन्डर वैदगी बी (एनएस-22290एच), 30 जनवरी 1988

लेफ्टि जीना थॉमस (एनएस-22291एल), 31 अगस्त 1984

लेफ्टि अखिला जी एस (एनएस-22292एन), 30 अप्रैल 1986

लेफ्टि अनेशा ओ एन (एनएस-22293डब्ल्यू), 29 मई 1982

लेफ्टि मैरी सुरेगा जे (एनएस-22294वाई), 20 अगस्त 1983

लेफ्टि दर्शना के (एनएस-22295एफ), 25 दिसम्बर 1985

लेफ्टि सौम्या टी (एनएस-22296के), 14 जनवरी 1986

लेफ्टि रेनुका डी आर (एनएस-22297एम), 10 जुलाई 1986

लेफ्टि संध्या ए (एनएस-22298पी), 17 अगस्त 1984

लेफ्टि टैरेस रामा सामी (एनएस-22299एक्स), 26 जुलाई 1986

लेफ्टि सुसीला टी (एनएस-22300एफ), 15 मई 1985

लेफ्टि आर वी शिल्पा (एनएस-22301के), 11 अक्टूबर 1986

लेफ्टि रूबी जोस (एनएस-22302एम), 29 दिसम्बर 1986

लेफ्टि गुरजीत कौर (एनएस-22303पी), 28 फरवरी 1987

लेफ्टि गायत्री पुप्पारापू (एनएस-22304एक्स), 11 अगस्त 1985

लेफ्टि अस्वथी गणेश (एनएस-22305ए), 13 नवम्बर 1986

लेफ्टि के विमला (एनएस-22306एच), 01 मार्च 1988

लेफ्टि अबिरमी तिरूपति (एनएस-22307एल), 01 जून 1984

लेफ्टि पूजा जैन (एनएस-22308एन), 08 फरवरी 1983

लेफ्टि शालिनी देवी बी (एनएस-22309डब्ल्यू), 12 जुलाई 1985

लेफ्टि पूजा दुआ (एनएस-22310एल), 03 मार्च 1988

लेफ्टि सारथी देवी एम (एनएस-22311एन), 23 सितम्बर 1985

लेफ्टि गायत्री गीता एस (एनएस-22312डब्ल्यू), 23 नवम्बर 1986

लेफ्टि पूजा परमार (एनएस-22313वाई), 07 अगस्त 1985

लेफ्टि धेनमोजी एम अरियप्पन (एनएस-22314एफ), 29 मार्च 1986

लेफ्टि क्रान्ति कुमारी यू (एनएस-22315के), 17 जुलाई 1986

लेफ्टि प्रियंका एम (एनएस-22316एम), 20 जून 1987

लेफ्टि शाइनी एन्जलिन एफ (एनएस-22317पी), 30 मार्च 1987

लेफ्टि इन्दिरा जी एस (एनएस-22318एक्स), 03 दिसम्बर 1985

लेफ्टि कलिङ्गमल वी एलियास श्यामला (एनएस-22319ए), 02 नवम्बर 1985

लेफ्टि बिन्दु सिंगला (एनएस-22320पी), 27 फरवरी 1987

लेफ्टि बन्देला मनी (एनएस-22321एक्स), 15 अगस्त 1986

लेफ्टि कोमन्दी नलिनी (एनएस-22322ए), 01 जुलाई 1986

लेफ्टि कृष्णा प्रिया आर (एनएस-22323एच), 19 अगस्त 1984

लेफ्टि सौम्या सुरेश (एनएस-22324एल), 25 मई 1986

लेफ्टि रेजिला वी (एनएस-22325एन), 31 मई 1985

लेफ्टि यशस्वनी (एनएस-22326डब्ल्यू), 27 अप्रैल 1987

लेफ्टि फरहत जे अमल (एनएस-22327वाई), 15 जुलाई 1978

लेफ्टि टीना शेरपा (एनएस-22328एफ), 30 मई 1981

लेफ्टि निजा एस (एनएस-22329के), 17 नवम्बर 1985

लेफ्टि जी बी योगारानी (एनएस-22330वाई), 18 अप्रैल 1987

लेफ्टि बी वैष्णवी (एनएस-22331एफ), 26 जून 1988

लेफ्टि रन्जुमोल के (एनएस-22332के), 09 अक्टूबर 1985

लेफ्टि रेवती वी (एनएस-22333एम), 12 मार्च 1986

लेफ्टि जेस्टीमोल जॉर्ज (एनएस-22334पी), 12 मार्च 1984
 लेफ्टि निरूपमा मोहन्ती (एनएस-22335एक्स), 08 अप्रैल 1986
 लेफ्टि कनकी अरुमुगम (एनएस-22336ए), 30 जून 1986
 लेफ्टि जे प्रियलता (एनएस-22337एच), 22 जून 1986
 लेफ्टि रामीसेट्टी हरिता (एनएस-22338एल), 10 जून 1986
 लेफ्टि शिखा शर्मा (एनएस-22339एन), 27 नवम्बर 1986
 लेफ्टि शैरोन डेविड (एनएस-22340एच), 07 मार्च 1987
 लेफ्टि मोहनप्रिया वी आर (एनएस-22341एल), 09 मई 1987
 लेफ्टि प्रवीना टी (एनएस-22342एन), 09 जुलाई 1985
 लेफ्टि राजबीर कौर (एनएस-22344वाई), 14 जून 1987
 लेफ्टि वी पल्लवी (एनएस-22345एफ), 07 मार्च 1987
 लेफ्टि ज्योति जोस (एनएस-22346के), 25 मई 1984
 लेफ्टि लेजा टी वर्गिस (एनएस-22343डब्ल्यू), 18 मार्च 1987
 लेफ्टि प्रमिला रानी (एनएस-22347एम), 18 अप्रैल 1987
 लेफ्टि अनुपमा अन्डे (एनएस-22348पी), 12 अगस्त 1986
 लेफ्टि स्वाति मेदुरी (एनएस-22349एक्स), 20 जून 1984
 लेफ्टि स्वप्ना नेथी (एनएस-22350एम), 06 अप्रैल 1986
 लेफ्टि उषा देवी पेन्त्यकोट (एनएस-22351पी), 10 जनवरी 1987
 लेफ्टि दिव्या एन (एनएस-22352एक्स), 07 नवम्बर 1987
 लेफ्टि किरणदीप कौर (एनएस-22353ए), 10 जनवरी 1988
 लेफ्टि रेवती अरपूथम (एनएस-22354एच), 18 जनवरी 1988
 लेफ्टि के एम मृणालिनी (एनएस-22355एल), 31 मार्च 1986
 लेफ्टि वी विजय प्रिया (एनएस-22356एन), 01 अप्रैल 1981
 लेफ्टि हेमा शर्मा (एनएस-22357डब्ल्यू), 24 फरवरी 1983
 लेफ्टि संगीता यथन्दिन (एनएस-22358वाई), 30 नवम्बर 1985
 लेफ्टि भुवनेश्वरी डी (एनएस-22359एफ), 12 नवम्बर 1987
 लेफ्टि शिजी सी (एनएस-22360डब्ल्यू), 23 मई 1987
 लेफ्टि जी हेमाप्रिया (एनएस-22361वाई), 28 जून 1987
 लेफ्टि भाव्या ओ के (एनएस-22362एफ), 30 अप्रैल 1986
 लेफ्टि राजेश्वरी एम यू (एनएस-22363के), 23 जनवरी 1985
 लेफ्टि लावन्या एम वी (एनएस-22365पी), 28 अगस्त 1986
 लेफ्टि रजनी ए (एनएस-22366एक्स), 01 जुलाई 1988
 लेफ्टि जैसमीन जॉय (एनएस-22367ए), 01 जनवरी 1987

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी(मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 01 फरवरी 2010 (बीएससी नर्सिंग अधिकारियों के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 01 फरवरी 2009) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्पावधि कमीशन प्रदान करते हैं :--

लेफ्टि परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्मतिथि

लेफ्टि श्रीरखा आर काइमल (एनएस-22071एफ), 10 मई 1985
 लेफ्टि गायत्री बी (एनएस-22072के), 03 जून 1986
 लेफ्टि ग्रीष्मा मोहन (एनएस-22073एम), 05 फरवरी 1986
 लेफ्टि मर्सी प्रथिमा एम (एनएस-22074पी), 10 जनवरी 1986
 लेफ्टि रूपिन्दर कौर (एनएस-22075एक्स), 23 सितम्बर 1985
 लेफ्टि निमिषा (एनएस-22076ए), 10 नवम्बर 1988
 लेफ्टि रूभा के एन (एनएस-22077एच), 23 जनवरी 1987
 लेफ्टि एम प्रियदर्शिनी (एनएस-22078एल), 25 जुलाई 1984
 लेफ्टि हेमा सान्धा मैरी एस (एनएस-22079एन), 07 जुलाई 1985
 लेफ्टि गोमती पी (एनएस-22080एच), 14 अक्टूबर 1987
 लेफ्टि ए के हरिका (एनएस-22081एल), 29 जनवरी 1985
 लेफ्टि हेमलता जी एल (एनएस-22082एन), 03 मई 1987
 लेफ्टि अन्नालक्ष्मी बी (एनएस-22083डब्ल्यू), 07 जुलाई 1986
 लेफ्टि एन्न माइकल (एनएस-22084वाई), 16 जून 1980
 लेफ्टि मिलू रानी वर्गिस (एनएस-22085एफ), 16 नवम्बर 1986
 लेफ्टि ज्योति कासवान (एनएस-22086के), 18 अक्टूबर 1985
 लेफ्टि कुमारी रंजना (एनएस-22087एम), 14 जनवरी 1987
 लेफ्टि पिल्लेफिट रजिता राधाकृष्णा (एनएस-22088पी), 14 मई 1985
 लेफ्टि सिमली मैरी साइमन (एनएस-22089एक्स), 03 नवम्बर 1986
 लेफ्टि सरिता एस (एनएस-22091पी), 24 नवम्बर 1985
 लेफ्टि के पुष्पा (एनएस-22092एक्स), 20 दिसम्बर 1983
 लेफ्टि सुमी चन्द (एनएस-22093ए), 22 फरवरी 1985
 लेफ्टि लीना पोपली (एनएस-22094एच), 12 सितम्बर 1987
 लेफ्टि सोनिया रानी (एनएस-22095एल), 06 मई 1986
 लेफ्टि रीतु (एनएस-22096एल), 09 नवम्बर 1987
 लेफ्टि आशा बिलिकी (एनएस-22097डब्ल्यू), 14 नवम्बर 1986
 लेफ्टि अमृता रानी पाल (एनएस-22098वाई), 11 सितम्बर 1987
 लेफ्टि सपना शर्मा (एनएस-22099एफ), 14 अगस्त 1985

लेफ्टि श्रीलक्ष्मी जी (एनएस-22100एल), 15 मई 1984	लेफ्टि दिव्या ओम (एनएस-22138पी), 25 मई 1986
लेफ्टि पी इनबरसी (एनएस-22101एन), 03 जून 1987	लेफ्टि नवप्रीत कौर (एनएस-22139एक्स), 08 नवम्बर 1987
लेफ्टि शिवानी (एनएस-22102डब्ल्यू), 25 जुलाई 1985	लेफ्टि आरती गुप्ता (एनएस-22140एम), 06 अक्टूबर 1985
लेफ्टि विनय कीर्ति (एनएस-22103वाई), 09 नवम्बर 1987	लेफ्टि गुरजीत कौर (एनएस-22141पी), 15 फरवरी 1987
लेफ्टि प्रिंसी लज़र (एनएस-22104एफ), 18 अगस्त 1985	लेफ्टि पुनम कुमारी (एनएस-22142एक्स), 22 जनवरी 1988
लेफ्टि रिसी जॉन (एनएस-22105के), 15 दिसम्बर 1985	लेफ्टि रक्षा कुमारी (एनएस-22143ए), 10 जुलाई 1985
लेफ्टि रूमन (एनएस-22106एम), 21 दिसम्बर 1986	लेफ्टि पुष्पलता टी (एनएस-22144एच), 10 अगस्त 1986
लेफ्टि ग्लैडिया मैथ्यू (एनएस-22107पी), 30 मई 1987	लेफ्टि डी एस हिमाबिन्दु (एनएस-22145एल), 11 नवम्बर 1987
लेफ्टि वैरामनी सी (एनएस-22108एक्स), 25 मई 1984	लेफ्टि सूर्या के (एनएस-22146एन), 24 मई 1987
लेफ्टि फ्लोरी एन जोसफ (एनएस-22109ए), 11 दिसम्बर 1986	लेफ्टि शाइनी फ्रांसिस (एनएस-22147डब्ल्यू), 15 मार्च 1987
लेफ्टि पुष्पा रानी (एनएस-22110पी), 14 फरवरी 1986	लेफ्टि प्रवीणा पी एस (एनएस-22148वाई), 21 दिसम्बर 1986
लेफ्टि जिंसी फिलिप (एनएस-22111एक्स), 28 जून 1987	लेफ्टि मालती एस (एनएस-22149एफ), 06 मई 1988
लेफ्टि गोमु एम (एनएस-22112ए), 08 मई 1985	लेफ्टि टी मेघला (एनएस-22150डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 1986
लेफ्टि सीमा (एनएस-22113एच), 10 दिसम्बर 1988	लेफ्टि पी ग्रैसी पेकियाथई (एनएस-22151वाई), 10 अप्रैल 1984
लेफ्टि जिजीमोल टी (एनएस-22114एल), 25 जून 1987	लेफ्टि बिन्सी थामस (एनएस-22152एफ), 15 मार्च 1986
लेफ्टि केजिया रोसलिन सिंगमाला (एनएस-22115एन), 08 मार्च 1987	लेफ्टि छाया (एनएस-22153के), 08 जून 1986
लेफ्टि जूली अब्राहम (एनएस-22116डब्ल्यू), 09 सितम्बर 1985	लेफ्टि तरवीन कौर (एनएस-22154एम), 18 मार्च 1988
लेफ्टि इन्दुमती वी (एनएस-22119के), 19 मार्च 1983	लेफ्टि लीमा मैथ्यू (एनएस-22155पी), 12 फरवरी 1986
लेफ्टि पूनम रानी (एनएस-22120वाई), 01 मार्च 1986	लेफ्टि पी स्टेला मारग्रेट (एनएस-22156एक्स), 24 अप्रैल 1985
लेफ्टि कविता कर्रे (एनएस-22121एफ), 14 मार्च 1987	लेफ्टि अमनदीप कौर (एनएस-22157ए), 15 जुलाई 1987
लेफ्टि लाल्हमिंगम्बीखियांगटे (एनएस-22122के), 30 मई 1985	लेफ्टि जैसमीन सुभा जोस वी (एनएस-22158एच), 20 मई 1982
लेफ्टि गीतु के जी (एनएस-22123एम), 19 जून 1987	लेफ्टि रूपिन्दर कौर (एनएस-22159एल), 22 अक्टूबर 1987
लेफ्टि उमा डी (एनएस-22124पी), 09 अगस्त 1986	लेफ्टि लीना शाइजु (एनएस-22160ए), 25 नवम्बर 1978
लेफ्टि अस्वथी वी एस (एनएस-22125एक्स), 09 जनवरी 1987	लेफ्टि शालिनी पी एस (एनएस-22162एल), 05 मार्च 1983
लेफ्टि रीना चौधरी (एनएस-22126ए), 19 जनवरी 1986	लेफ्टि रैनी वर्गिस (एनएस-22163एल), 30 जुलाई 1983
लेफ्टि महनाज परवीन (एनएस-22127एच), 25 सितम्बर 1984	लेफ्टि हरप्रीत कौर (एनएस-22164डब्ल्यू), 21 अप्रैल 1987
लेफ्टि अखिला जी वी (एनएस-22128एल), 17 मई 1987	लेफ्टि तनु कुमारी (एनएस-22165वाई), 14 दिसम्बर 1986
लेफ्टि विजिता वी नायर (एनएस-22129एन), 19 जुलाई 1987	लेफ्टि ई नादिया (एनएस-22166एफ), 05 जून 1986
लेफ्टि पुलेला नंदिता (एनएस-22130एच), 14 नवम्बर 1986	लेफ्टि कुमारी आर (एनएस-22167के), 17 दिसम्बर 1984
लेफ्टि संध्याशंकर आई (एनएस-22131एल), 16 मार्च 1984	लेफ्टि अमृता पाण्डे (एनएस-22168एम), 08 अप्रैल 1987
लेफ्टि कमलजीत कौर (एनएस-22132एन), 18 नवम्बर 1984	लेफ्टि विष्णुप्रिया (एनएस-22169पी), 17 मार्च 1987
लेफ्टि एस पद्मा (एनएस-22133डब्ल्यू), 07 अक्टूबर 1984	लेफ्टि जिनीला एल (एनएस-22170के), 09 जुलाई 1985
लेफ्टि सूर्या पी एस (एनएस-22134वाई), 23 अप्रैल 1986	लेफ्टि अम्बिली के बेबी (एनएस-22171एम), 24 मई 1987
लेफ्टि सौली मर्सी के (एनएस-22135एफ), 07 मई 1986	लेफ्टि जी रम्या (एनएस-22172पी), 06 मई 1987
लेफ्टि रेखा रानी (एनएस-22137एम), 25 दिसम्बर 1987	लेफ्टि अनामिका सलगोत्रा (एनएस-22173एक्स), 01 दिसम्बर 1987

लेफ्टि मन्जु अनिरुधन (एनएस-22174ए), 10 अगस्त 1979

लेफ्टि मधु (एनएस-22175एच), 10 अक्टूबर 1983

लेफ्टि स्मिता पी पुथूर (एनएस-22176एल), 05 जनवरी 1983

लेफ्टि पवित्रा (एनएस-22177एन), 27 सितम्बर 1985

लेफ्टि नवजोत कौर (एनएस-22178डब्ल्यू), 15 अगस्त 1985

लेफ्टि अनुरूप पी ए (एनएस-22179वाई), 24 मई 1986

लेफ्टि राजविंदर कौर (एनएस-22180एन), 01 जनवरी 1986

लेफ्टि मीना कुमारी (एनएस-22181डब्ल्यू), 01 जुलाई 1987

लेफ्टि रम्या आर (एनएस-22182वाई), 26 मई 1987

लेफ्टि रमनीक कौर (एनएस-22183एफ), 20 फरवरी 1987

लेफ्टि वी एनोजन वर्गीस (एनएस-22184के), 19 अप्रैल 1985

लेफ्टि प्रिसकिनी (एनएस-22185एम), 28 अगस्त 1984

लेफ्टि एन कीर्ति (एनएस-22186पी), 24 मार्च 1987

लेफ्टि कुमारी अल्का (एनएस-22187एक्स), 10 फरवरी 1987

लेफ्टि रंजीत कौर (एनएस-22188ए), 03 नवम्बर 1984

लेफ्टि डॉली शर्मा (एनएस-22189एच), 21 अगस्त 1987

लेफ्टि रुचिता शर्मा (एनएस-22190एक्स), 14 नवम्बर 1987

लेफ्टि ऊषारानी एन (एनएस-22191ए), 31 मई 1984

लेफ्टि सिनी थाई पी. (एनएस-22192एच), 16 मई 1987

लेफ्टि मिथलेश कुमारी अंकोडिया (एनएस-22193एल), 09 नवम्बर 1982

लेफ्टि परमबीर कौर (एनएस-22194एन), 15 सितम्बर 1986

लेफ्टि जमुना जोसफ (एनएस-22195डब्ल्यू), 03 फरवरी 1987

लेफ्टि आर क्रिस्टी राज (एनएस-22196वाई), 19 जुलाई 1984

लेफ्टि दीपा वी आर (एनएस-22197एफ), 03 फरवरी 1985

लेफ्टि रजनी पी एस (एनएस-22198के), 06 जून 1986

लेफ्टि के गीता लक्ष्मी (एनएस-22199एम), 29 अक्टूबर 1986

लेफ्टि मंजू पूनिया (एनएस-22200डब्ल्यू), 23 अगस्त 1986

लेफ्टि फ्रिडा के (एनएस-22201वाई), 15 अप्रैल 1987

लेफ्टि विंसी पी वर्गीस (एनएस-22202एफ), 26 फरवरी 1987

लेफ्टि दमनदीप कौर (एनएस-22203के), 24 जुलाई 1987

लेफ्टि वाई एस स्वप्नसुधा (एनएस-22204एम), 12 अप्रैल 1984

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 28 जून 2010 (बीएससी नर्सिंग अधिकारी के लिए वरिष्ठता वेतनमान

एवं पदोन्नति 28 जून 2009) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं :--

लेफ्टि परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या व जन्म तिथि

लेफ्टि अमिता मैथ्यू के (एनएस-22376एफ), 09 जुलाई 1987

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 01 फरवरी 2010 (एमएससी नर्सिंग अधिकारियों के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 01 फरवरी 2008) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं :--

लेफ्टि परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या व जन्म तिथि

लेफ्टि रेखा एस (एनएस-22070वाई), 07 अगस्त 1981

लेफ्टि लावन्या कानन (एनएस-22117वाई), 11 जुलाई 1978

लेफ्टि जयलक्ष्मी सखारे (एनएस-22118एफ), 15 अप्रैल 1982

लेफ्टि अनुसूया आर (एनएस-22136के), 16 जुलाई 1980

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 23 नवम्बर 2009 (एमएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 23 नवम्बर 2007) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं :--

लेफ्टि परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या व जन्म तिथि

लेफ्टि बज्जल रजनी (एनएस-22069के), 31 अक्टूबर 1983

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 05 मार्च 2010 (एमएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 05 मार्च 2008) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं :--

लेफ्टि परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या व जन्म तिथि

लेफ्टि अरूणजुनई देवी आर (एनएस-22275एन), 22 जून 1982

लेफ्टि गीता रानी निम्मला (एनएस-22364एम), 13 फरवरी 1982

जे के ग्रेवाल

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

सं. 555, दिनांक 02 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर के रैंक में

कैप्टन विनय शर्मा (टीए-42571) (इंफैन्ट्री), 04 जुलाई 2011

कैप्टन अयूब खान (टीए-42572) (इंफैन्ट्री), 07 जुलाई 2011

कैप्टन बनाया जाता है

लेफ्टि कपिल देव पाण्डेय (टीए-42683) (इंफैन्ट्री), 12 जून 2011

लेफ्टि श्रीहरि कुगाजी (टीए-42685) (इंफैन्ट्री), 16 जून 2011

लेफ्टि कंवर प्रीत सिंह सन्धू (टीए-42672) (इंफैन्ट्री), 11 दिसम्बर 2010

लेफ्टि नांगमेईकापम दानिश (टीए-42681) (इंफैन्ट्री), 14 मई 2011

लेफ्टि जितेंद्र जीत सिंह (टीए-42682) (इंफैन्ट्री), 19 मई 2011

वी राजाराम

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 556, दिनांक 03 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करती हैं :-

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

सूबेदार मेजर धर्म गुरू (पंडित)

सूबेदार मेजर (धर्म गुरू) (पंडित) टी आर खनक्रियाल (जेसी-131921डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (धर्म गुरू) (पंडित) ए एन झा (जेसी-164878ए), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार धर्म गुरू (पंडित)

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) यू एस शुक्ला (जेसी-724052एफ), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) एस के त्रिपाठी (जेसी-724056एक्स), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) राकेश (जेसी-724054एम), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) जे आर शर्मा (जेसी-724053के), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) आर के पांडे (जेसी-724055पी), 01 जनवरी 2009

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) ए के दिवेदी (जेसी-724104एम), 01 अगस्त 2009

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) आर एन पांडे (जेसी-724102एफ), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) एच एस शुक्ला (जेसी-724286एल), 01 जनवरी 2010

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) आर सी मिश्रा (जेसी-724287एन), 01 फरवरी 2010

सूबेदार (धर्म गुरू) (पंडित) रनविजय सिंह (जेसी-724103के), 01 फरवरी 2011

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

सूबेदार आर टी पंडित के रैंक में

नायब सूबेदार आर्विंद पांडे (जेसी-754516एच), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार वेद प्रकाश तिवारी (जेसी-754518एन), 01 अगस्त 2011

सूबेदार मेजर (डी डब्ल्यू) के रैंक में

सूबेदार सूर्या प्रताप त्रिपाठी (जेसी-760446एल), 01 अगस्त 2011

सूबेदार मेजर मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

सूबेदार एम डी अली शान (जेसी-754628एच), 01 अगस्त 2011

सूबेदार मेजर मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में

सूबेदार नरेश कुमार मेहता (जेसी-755654डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011

सूबेदार मिथिलेश गुप्ता (जेसी-755652एल), 03 अगस्त 2011/ 01 अगस्त 2011 *

सूबेदार मेजर मास्टर टेक इलैक्ट के रैंक में

सूबेदार बीरबल प्रसाद (जेसी-755550के), 01 अगस्त 2011 *

सूबेदार कुनवर सिंह (जेसी-755548एक्स), 05 अगस्त 2011/ 01 अगस्त 2011 *

सूबेदार मेजर आर्टिजन मेटैलर्जी के रैंक में

सूबेदार तजुद्दीन अहमद (जेसी-757977एक्स), 04 अगस्त 2011/ 01 अगस्त 2011 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

तनाजी विष्णु अर्दलकर (सं. 14597743एच अब जेसी-766318के), 23 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

सतीश कुमार (सं. 14593709एल अब जेसी-766309एच), 20 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

श्रीशांत चन्द्रा कांत धर्मराज (सं. 14596167एक्स अब जेसी-766311ए), 18 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

राम अवतार (सं. 14590045एक्स अब जेसी-766286एम), 01 सितम्बर 2011

मोहन सिंह यादव (सं. 14586659एच अब जेसी-766281एन), 23 अगस्त 2011

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

अशोक कुमार (सं. 14614362ए अब जेसी-766296डब्ल्यू), 18 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

ज्ञानेंद्रा वर्मा (सं. 14613879वाई अब जेसी-766298एफ), 25 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

जाधव कृष्णा शिवाजी (सं. 14614353वाई अब जेसी-766295एन), 01 अगस्त 2011

करतार सिंह (सं. 14614313एक्स अब जेसी-766291एक्स), 20 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

गोविन्द दास अहिरवार (सं. 14580945एफ अब जेसी-766215एल), 30 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011 *

सिकंदर प्रसाद यादव (सं. 14605162एच अब जेसी-766222एफ), 13 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011 *

पवन कुमार (सं. 14603389एक्स अब जेसी-766221वाई), 10 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011 *

अनिल कुमार (सं. 14593941डब्ल्यू अब जेसी-766267एफ), 30 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

राना प्रसाद सिंह (सं. 14605164एन अब जेसी-766275ए), 23 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

कमलेश कुमार (सं. 14602609के अब जेसी-766272एम), 23 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

सुभाष चन्द्र (सं. 14603072एच अब जेसी-766274एक्स), 17 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

उमेश कुमार (सं. 14593780वाई अब जेसी-766268के), 23 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

उपेन्द्र प्रसाद (सं. 14601707एक्स अब जेसी-766270एफ), 19 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

रजत सिंह (सं. 14605201डब्ल्यू अब जेसी-766280एल), 01 सितम्बर 2011

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

विनोद कुमार (सं. 14614023ए अब जेसी-766238एम), 11 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011 *

बंशी लाल (सं. 14613684एन अब जेसी-766232एल), 30 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

विभु दाथ आर (सं. 14614293पी अब जेसी-766290पी), 13 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

धवडे संजय शंभुराव (सं. 14614328ए अब जेसी-766293एच), 01 अगस्त 2011

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

समिरन राय (सं. 14602800एल अब जेसी-766271के), 15 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

क्रिष्ण नंद (सं. 14603569ए अब जेसी-766259एच), 05 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

प्रेम चंद शर्मा (सं. 14597924एन अब जेसी-766317एफ), 17 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

अब्दुल हफीज़ (सं. 14597943वाई अब जेसी-766320एफ), 17 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन औड वर्क के रैंक में

राम पाल सिंह (सं. 14591198एन अब जेसी-765571वाई), 01 दिसम्बर 2010

सतेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14589156एच अब जेसी-766210डब्ल्यू), 15 जुलाई 2011/01 मई 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक रडार के रैंक में

पशुपती नाथ सिंह (सं. 14592622एक्स अब जेसी-765867एक्स), 01 मार्च 2011

हवलदार से नायब सूबेदार टेक अप्टो इलैक्ट के रैंक में

राम नारायण यादव (सं. 14594640वाई अब जेसी-766181एच), 06 जून 2011/01 जून 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

थंगाअप्पन आर (सं. 14583464एम अब जेसी-766188एम), 01 जुलाई 2011

शेख मुहम्मद रसूल (सं. 14583465पी अब जेसी-766223के), 08 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

हरबीर सिंह (सं. 14584940एम अब जेसी-766256पी), 01 अगस्त 2011

राजेश कुमार तिवारी (सं. 14584329एल अब जेसी-766257एक्स), 01 अगस्त 2011

हवलदार से नायब सूबेदार (स्पोर्ट स्टॉफ) के रैंक में

रामेश्वर प्रसाद (सं. 14594388एल अब जेसी-766205एफ), 02 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

राम नरेश (सं. 14603317एन अब जेसी-766262एच), 04 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

साहुकारि लोकेस्वरा राव (सं. 14594769एम अब जेसी-766261ए), 04 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार (आर्टिजन मेटैलर्जी) के रैंक में

समर किशोर (सं. 14614814एक्स अब जेसी-766209एक्स), 04 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

दीपक चन्द्रा बगलरि (सं. 14612298पी अब जेसी-766207एम), 01 जुलाई 2011

घनश्याम कुमार (सं. 14616401एम अब जेसी-766208पी), 11 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार आर्मायेन्ट टेक (एएफवी/एडी) के रैंक में

भोला राम पाल (सं. 14585158डब्ल्यू अब जेसी-766225पी), 28 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

कामादी ए के वर्मा (सं. 14587460एन अब जेसी-766226एक्स), 01 अगस्त 2011

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

कन्नन डी (सं. 14644262के अब जेसी-766243एक्स), 25 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

रेल्ला योगेस्वर राव (सं. 14589559एच अब जेसी-766244ए), 01 अगस्त 2011

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक इंजीनियर इक्विपमेंट के रैंक में

अनील कुमार (सं. 14588815ए अब जेसी-766252वाई), 04 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011 *) के रैंक में

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

दीपा नरायण पाटिल (सं. 14604377पी अब जेसी-766260एक्स), 10 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

रेजुअल करीम (सं. 14602090वाई अब जेसी-766217डब्ल्यू), 29 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

काम्बले बबन किसन (सं. 14592647के अब जेसी-766211पी), 26 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

गोलक पति मंडल (सं. 14586302एम अब जेसी-766214एम), 11 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

शिशु पाल सिंह (सं. 14600470वाई अब जेसी-766269एम), 03 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

श्रीनिवासन आर (सं. 14593991एफ अब जेसी-766213ए), 30 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

शीश पाल (सं. 14614047के अब जेसी-766077पी), 13 अगस्त 2011/01 अप्रैल 2011 *

सुशिल मृत्युडी (सं. 14613085एन अब जेसी-766228एच), 02 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

मधु सूधनन नायर के बी (सं. 14614303एन अब जेसी-766237के), 01 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011 *

सुन्दर लाल (सं. 14598084एल अब जेसी-766231एच), 01 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011 *

कनवर सिंह (सं. 14614042एल अब जेसी-766230ए), 01 अगस्त 2011/05 जून 2011 *

मेधेकर कुमार गुलाब राव (सं. 14614391पी अब जेसी-766308ए), 17 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

सुखबीर सिंह (सं. 14593054के अब जेसी-766250एन), 23 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

दीनेश प्रसाद (सं. 14597723पी अब जेसी-766314एन), 18 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

नंदन सिंह दोबाल (सं. 14597722एम अब जेसी-766313एल), 18 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

रिशी पाल (सं. 14597733वाई अब जेसी-766315डब्ल्यू), 19 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

प्रभु सिंह (सं. 14597738एक्स अब जेसी-766316वाई), 19 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

एस पॉल राज (सं. 14589636एम अब जेसी-766204वाई), 13 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

नगेन्द्रा प्रसाद गुप्ता (सं. 14587958एन अब जेसी-766202एन), 01 जुलाई 2011

मोहम्मद मुख्त्यार (सं. 14585545एल अब जेसी-766248डब्ल्यू), 22 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

विजय कुमार (सं. 14593938डब्ल्यू अब जेसी-766212एक्स), 09 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

अर्जुन सिंह (सं. 14585575एच अब जेसी-766219एफ), 04 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

राज कुमार सिंह (सं. 14594039एफ अब जेसी-766218वाई), 23 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

प्रदीप कुमार टी आर (सं. 14614273एफ अब जेसी-766235वाई),
18 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

रेजी टी के (सं. 14614277एक्स अब जेसी-766236एफ),
14 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

जोय सैमुअल (सं. 14614307के अब जेसी-766242पी), 22 जुलाई
2011/01 जुलाई 2011 *

देश राज सिंह (सं. 14613889एच अब जेसी-765309डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2010

हिमांशु चंद (सं. 14613840एम अब जेसी-765930एफ), 07 जुलाई
2011/01 मार्च 2011 *

सेथुमाधवन ए के (सं. 14614203एच अब जेसी-766240के),
26 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

राजबीर सिंह (सं. 14614216ए अब जेसी-766234डब्ल्यू),
18 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

श्याम किशोर (सं. 14576377डब्ल्यू अब जेसी-765156एक्स),
02 जुलाई 2010/23 मई 2010 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

बदन सिंह (सं. 14592269डब्ल्यू अब जेसी-766249वाई),
21 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

अशोक कुमार (सं. 14593507के अब जेसी-766251डब्ल्यू),
20 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

महेन्दर सिंह (सं. 14613932वाई अब जेसी-766233एन), 19 अगस्त
2011/01 जुलाई 2011 *

खन्डे बलसो पांडुरंग (सं. 14614336वाई अब जेसी-766299के),
17 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

सुधिन कुमार दास (सं. 14614325एम अब जेसी-766292ए),
26 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हरिश कुमार सिंह (सं. 14614385एफ अब जेसी-766307एक्स),
26 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

एम डी जुबेर आलम (सं. 14614378एल अब जेसी-766306पी),
27 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

मधु के (सं. 14614283एल अब जेसी-766241एम), 20 अगस्त
2011/01 अगस्त 2011 *

मगर शंकर बाबा (सं. 14614370वाई अब जेसी-766297वाई),
25 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

सुदर्शन सिंह नेगी (सं. 14597926वाई अब जेसी-766319एम),
18 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

अभिमन्यु साहु (सं. 14594367पी अब जेसी-766310एक्स),
25 अगस्त 2011/01 अगस्त 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी)
के रैंक में

महावीर सिंह (सं. 14589704पी अब जेसी-766284एफ),
01 सितम्बर 2011

विपिन कुमार पांडे (सं. 14587866एफ अब जेसी-766282डब्ल्यू),
29 अगस्त 2011/01 जुलाई 2011 *

सत्येन्द्र नाथ (सं. 14590688पी अब जेसी-766289ए), 01 सितम्बर
2011

चूडामनी कोली (सं. 14588646के अब जेसी-766339ए),
02 सितम्बर 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

सुरेश चंद (सं. 14595442ए अब जेसी-766216एन), 01 अगस्त
2011/01 जुलाई 2011 *

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

न कि कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 557, दिनांक 3 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ
करते हैं :--

नियमित सेना
तोपखाना अभिलेख

सबस्टैन्टिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार रघुवीर प्रसाद शर्मा (जेसी-272248के), 02 अगस्त
2010/30 अप्रैल 2010 *

नायब सूबेदार गी वर्गीस आर (जेसी-271562एल), 29 जून 2010/
01 मई 2010 *

नायब सूबेदार दिनेश कुमार धाभाई (जेसी-271555पी), 04 अक्टूबर
2010/01 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार बी ए सेलवम (जेसी-271667पी), 08 जनवरी 2011/
10 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-271222एच), 04 जुलाई 2010/
01 सितम्बर 2010 *

नायब सूबेदार सुरेश प्रसाद सिंह (जेसी-270479एफ), 25 अप्रैल
2011/01 जनवरी 2011 *

नायब सूबेदार निरांजन झा (जेसी-271212वाई), 07 मार्च 2011/ 27 नवम्बर 2010 *

नायब सूबेदार ग्यान सिंह (जेसी-270142वाई), 13 जुलाई 2011/ 01 फरवरी 2011 *

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-271336एन), 20 फरवरी 2011/ 01 फरवरी 2011 *

नायब सूबेदार कोडाग हनमंत महादेव (जेसी-271157एफ), 30 मार्च 2011/01 मार्च 2011 *

नायब सूबेदार अमरनाथ सिंह (जेसी-272839एल), 04 जुलाई 2010/01 अप्रैल 2011 *

नायब सूबेदार भद्रन आर (जेसी-270538एच), 17 जून 2011/ 20 अप्रैल 2011 *

नायब सूबेदार राम नन्दन सिंह यादव (जेसी-271095वाई), 03 अगस्त 2011/22 अप्रैल 2011 *

नायब सूबेदार इंगले संजय माधवराव (जेसी-272481एक्स), 27 अप्रैल 2010/05 दिसम्बर 2010 *

नायब सूबेदार के रामाचन्द्रन (जेसी-271000एन), 30 जून 2011/ 04 मार्च 2011 *

नायब सूबेदार रमेश चन्द्रा (जेसी-271302ए), 01 जून 2011/ 20 अप्रैल 2011 *

नायब सूबेदार यादव लाल प्रसाद (जेसी-271204ए), 31 मई 2011/ 01 मई 2011 *

नायब सूबेदार वेलायुधन नायर के (जेसी-271627एन), 01 मई 2011

नायब सूबेदार डिक बीर तमंग (जेसी-273065ए), 01 जून 2011/ 01 मई 2011 *

नायब सूबेदार विजय शंकर राय (जेसी-274111डब्ल्यू), 01 जुलाई 2011/30 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार शिव प्रसाद (जेसी-272972एन), 16 जुलाई 2011/ 31 अगस्त 2011 *

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-274050के), 05 जून 2011/ 01 फरवरी 2011 *

नायब सूबेदार युवराज थापा (जेसी-274531डब्ल्यू), 17 जुलाई 2011/26 फरवरी 2011 *

नायब सूबेदार विरेन्द्रा सिंह (जेसी-270861एक्स), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार गोविन्दा भिकना चव्हाण (जेसी-271423एफ), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार गणेश्वर मोहन्ती (जेसी-271512ए), 04 जुलाई 2011/01 जुलाई 2011 *

नायब सूबेदार के वेलु सामी (जेसी-270960ए), 18 जुलाई 2011/ 01 जुलाई 2011 *

नायब सूबेदार विपीन कुमार सिंह (जेसी-270815एच), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार राज सिंह मलहान (जेसी-270886के), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार विष्णू दत्तू बडे (जेसी-271116के), 08 जुलाई 2011/ 01 जून 2011 *

नायब सूबेदार मन मोहन (जेसी-271297ए), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार विजय बहादुर यादव (जेसी-271248एक्स), 01 जुलाई 2011

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना शाखा नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार (एस के टी)

नायब सूबेदार एस मनी (जेसी-663000एम), 30 जून 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 07 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पुष्पेन्द्र सिंह (जेसी-662920एक्स), 09 जुलाई 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एस के टी)

हवलदार अवधेश कुमार (सं. 6381922के अब जेसी-667812एक्स), 01 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार राजीव कुमार (सं. 6387859डब्ल्यू अब जेसी-667813ए), 16 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 23 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार के सुरेश (सं. 6384320एफ अब जेसी-667832एल), 27 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 23 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अनिल कुमार पी (सं. 6387075पी अब जेसी-667833एन), 25 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 07 मई 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

हवलदार अमजद सुलतान (सं. 13691258डब्ल्यू अब जेसी-667815एल), 21 जून 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 14 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 2595500पी अब जेसी-667804वाई), 27 जून 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार बलराम दत्ता (सं. 14916415एल अब जेसी-667805एफ), 01 जुलाई 2011

हवलदार जसबिर सिंह (सं. 2482276ए अब जेसी-667826एक्स), 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार लिपिक : एस डी

हवलदार बारु राम धिल्लन (सं. 6383652वाई अब जेसी-667806के), 01 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 30 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार गाडगे दिलिप दशरथ (सं. 6385512एल अब जेसी-667807एम), 01 जून 2011

हवलदार मनोज कुमार (सं. 6381824के अब जेसी-667808पी), 01 जुलाई 2011 *

हवलदार शिंदे शिवाजी मारुती (सं. 6385422के अब जेसी-667809एक्स), 01 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार रामेंद्र शर्मा (सं. 6385591एल अब जेसी-667810एम), 01 जुलाई 2011

हवलदार विजय कुमार यादव (सं. 6385663के अब जेसी-667811पी), 01 जुलाई 2011

हवलदार अली अकबर (सं. 6385899वाई अब जेसी-667816एन), 01 अगस्त 2011

हवलदार रोहिताश कुमार जांगिड (सं. 6389231एम अब जेसी-667818वाई), 25 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार सत्य पाल सिंह (सं. 6383887एल अब जेसी-667819एफ), 25 जुलाई 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार राज किशोर पांडेय (सं. 6383906एल अब जेसी-667820डब्ल्यू), 01 अगस्त 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 25 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार भंवर राम नैन (सं. 6386015एन अब जेसी-667821वाई), 01 अगस्त 2011

हवलदार के कमलानाथन (सं. 6386028एल अब जेसी-667822एफ), 01 अगस्त 2011

हवलदार हृदय राम यादव (सं. 6385850एच अब जेसी-667823के), 01 अगस्त 2011

हवलदार अनिल कुमार मिश्रा (सं. 6385857एम अब जेसी-667824एम), 01 अगस्त 2011

हवलदार क्रिष्णा सिंह (सं. 6385896एल अब जेसी-667825पी), 01 अगस्त 2011

हवलदार विजयन वी (सं. 6382842वाई अब जेसी-667827ए), 01 अगस्त 2011 *

हवलदार टी महेश मधुकर (सं. 6382353एन अब जेसी-667828एच), 01 अगस्त 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 25 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 6385786डब्ल्यू अब जेसी-667829एल), 01 अगस्त 2011

हवलदार रामनुज सिंह (सं. 6385894ए अब जेसी-667830ए), 01 अगस्त 2011

हवलदार बिरेंद्र कुमार मिश्रा (सं. 6385895एच अब जेसी-667831एच), 01 अगस्त 2011 *

हवलदार सतिश कुमार (सं. 6385933एन अब जेसी-667836एफ), 01 सितम्बर 2011

सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

नायब सूबेदार बजरंग बलि सिंह (जेसी-665039एक्स), 01 जुलाई 2011

नायब सूबेदार जेम्स के सी (जेसी-665040एम), 01 अगस्त 2011

सूबेदार लिपिक : एस डी

नायब सूबेदार जगदीश चंद (जेसी-664515वाई), 27 जुलाई 2011 *

नायब सूबेदार रसमैया बोस (जेसी-664527एन), 17 अगस्त 2011 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
 वरिष्ठता 07 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रूद्र प्रताप सिंह (जेसी-664769डब्ल्यू), 22 जुलाई
 2011 *

नायब सूबेदार कैलाश सिंह कर्णवंशी (जेसी-664771एन), 28 जुलाई
 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
 वरिष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बिशनु राम आम्बेडकर (जेसी-664888एम),
 08 अगस्त 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
 वरिष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद (जेसी-664807एफ), 09 जुलाई 2011 *

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-664804एन), 15 जुलाई 2011 *

नायब सूबेदार हरिश चंद्र (जेसी-664805डब्ल्यू), 25 जुलाई 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
 वरिष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मनोज कुमार मोहंती (जेसी-664783एच), 01 अगस्त
 2011

नायब सूबेदार सैयद मुहम्मद जाहिद हुररौन (जेसी-664784एल),
 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार अजित कुमार (जेसी-664870डब्ल्यू), 01 अगस्त
 2011

नायब सूबेदार सुरेश एम (जेसी-664868वाई), 01 अगस्त 2011

रवीन्द्र कुमार अरोड़ा
 अवर सचिव

सं. 558, दिनांक 3 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ
 करते हैं

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार (लिपिक) रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) राजाकुमारन एन (जेसी-421190वाई),
 01 अगस्त 2011

नायब सूबेदार (लिपिक) पिजूस कान्ती सरकार (जेसी-420979एम),
 01 सितम्बर 2011

सुभद्रत करमाकर
 अवर सचिव

 (थल सेना शाखा)

सं. 559, दिनांक 4 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ
 करते हैं :--

स्थायी थल सेना

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी नायब सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेन्ट)

हवलदार राम प्रकाश (सं. 13963009ए अब जेसी-697824एफ),
 01 जनवरी 2011

हवलदार सनकोर राम राय (सं. 13963062एल अब
 जेसी-697895एच), 01 जनवरी 2011

हवलदार अशोक कुमार मिश्रा (सं. 13963095डब्ल्यू अब
 जेसी-697825के), 01 जनवरी 2011

हवलदार शैक करीमुल्ला (सं. 13962183ए अब जेसी-697826एम),
 01 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
 ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार कोमल गुरिया (सं. 13963132वाई अब जेसी-697896एल),
 01 फरवरी 2011

हवलदार शंकर सिंह (सं. 13963143एल अब जेसी-697897एन),
 01 फरवरी 2011 *

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 13963146वाई अब
 जेसी-697898डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

हवलदार तपन कुमार दत्ता (सं. 13963168एक्स अब
 जेसी-697905एफ), 01 फरवरी 2011

हवलदार चन्द्र भूषण सिंह (सं. 13963196के अब
 जेसी-697934डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

हवलदार सोम बहादुर थापा (सं. 13963188एल अब
 जेसी-697899वाई), 01 फरवरी 2011

हवलदार दलीप सिंह (सं. 13963221एक्स अब जेसी-697935वाई),
 01 फरवरी 2011

हवलदार धीरेन्द्र सिंह (सं. 13963323एन अब जेसी-697900एच),
 01 फरवरी 2011

हवलदार बी सेतु (सं. 13963233एम अब जेसी-697936एफ),
01 फरवरी 2011

हवलदार रतन कुमार मण्डल (सं. 13962850एच अब जेसी-697901एल), 01 फरवरी 2011

हवलदार कृष्ण लाल (सं. 13963482एल अब जेसी-697904वाई),
01 फरवरी 2011

हवलदार रामवीर सिंह (सं. 13963492पी अब जेसी-697902एन),
01 फरवरी 2011

हवलदार मलया कुमार सामल (सं. 13963529एल अब जेसी-697937के), 01 फरवरी 2011

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 13963540के अब जेसी-697903डब्ल्यू),
01 फरवरी 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार सीवी (सं. 13963555एम अब जेसी-697938एम), 01 मार्च 2011

हवलदार रजिन्दर सिंह (सं. 13963551डब्ल्यू अब जेसी-697939पी),
01 मार्च 2011

हवलदार लाला राम (सं. 13963628एन अब जेसी-697940के),
01 मार्च 2011

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 13963706ए अब जेसी-697941एम),
01 मार्च 2011

हवलदार राकेश कुमार सिंह (सं. 13963712एन अब जेसी-697942पी), 01 मार्च 2011

हवलदार गौरी शंकर ओझा (सं. 13963734एम अब जेसी-697943एक्स), 01 मार्च 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्रन के (सं. 13963786एच अब जेसी-697993एच),
01 अप्रैल 2011

हवलदार कुंदन सिंह (सं. 13963802पी अब जेसी-697989ए),
01 अप्रैल 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार लाल बहादुर सिंह (सं. 13963779एम अब जेसी-698044एच), 01 मई 2011

हवलदार हबीबउल्लाह खान (सं. 13963840एल अब जेसी-698045एल), 01 मई 2011

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13962836डब्ल्यू अब जेसी-698046एन), 01 मई 2011

हवलदार मोहना कुमार एस (सं. 13964017एल अब जेसी-698047डब्ल्यू), 01 मई 2011

हवलदार पंचानना परीदा (सं. 13964042के अब जेसी-698069पी),
01 मई 2011

हवलदार राम लाल मिश्रा (सं. 13964025के अब जेसी-698048वाई),
01 मई 2011

हवलदार आर गुरुसामी (सं. 13964029ए अब जेसी-698049एफ),
01 मई 2011

हवलदार टीकू राम जाट (सं. 13964060एम अब जेसी-698050डब्ल्यू), 01 मई 2011

हवलदार लाला राम (सं. 13964224एक्स अब जेसी-698068एम),
01 मई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र अदापा लिम्बीकाई (सं. 13964278वाई अब जेसी-698097एफ), 01 जून 2011

हवलदार हरेन्दर यादवा (सं. 13964369एच अब जेसी-698098के),
01 जून 2011

हवलदार प्रदीप कुमार दुबे (सं. 13963743एन अब जेसी-698099एम), 01 जून 2011

हवलदार सुरेश साह (सं. 13964409वाई अब जेसी-698100डब्ल्यू),
01 जून 2011

हवलदार बैद्य नाथ घोष (सं. 13964488वाई अब जेसी-698101वाई),
01 जून 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जून 2011 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश सिंह (सं. 13964509के अब जेसी-698102एफ),
01 जुलाई 2011

हवलदार गोपाल राम (सं. 13964540डब्ल्यू अब जेसी-698103के),
01 जुलाई 2011

हवलदार दशरथी प्रधान (सं. 13964568डब्ल्यू अब जेसी-698104एम), 01 जुलाई 2011

हवलदार दिलीप कुमार महापात्रा (सं. 13964569वाई अब जेसी-698105पी), 01 जुलाई 2011

हवलदार गज मोहन लाल (सं. 13964666डब्ल्यू अब जेसी-698106एक्स), 01 जुलाई 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

हवलदार के वेंकट रमन (सं. 13964094ए अब जेसी-698139एच),
01 अगस्त 2011

हवलदार मालम सिंह (सं. 13964814डब्ल्यू अब जेसी-698140एक्स), 01 अगस्त 2011

हवलदार मो अब्दुल वादुद (सं. 13964806एक्स अब जेसी-698141ए), 01 अगस्त 2011

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 13964879के अब जेसी-698142एच), 01 अगस्त 2011

हवलदार नरेन्द्र प्रसाद दुबे (सं. 13964859डब्ल्यू अब जेसी-698143एल), 01 अगस्त 2011

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जाएगी)

कुलवन्त राणा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 560, दिनांक 4 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार लाभाला भास्करा राव (जेसी-243246डब्ल्यू), 28 जुलाई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राज कुमार (जेसी-243023वाई), 07 मई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/एसकेटी जसवंत सिंह (जेसी-242165के), 01 मार्च 2011

नायब रिसालदार/क्लर्क राजेन्द्र सिंह (जेसी-242363पी), 01 मार्च 2011

नायब रिसालदार/क्लर्क रामायन प्रसाद (जेसी-242463ए), 01 मार्च 2011

नायब रिसालदार राम निवास (जेसी-243510वाई), 07 मई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क उमेश प्रसाद सिंह (जेसी-242465एल), 01 अप्रैल 2011

नायब रिसालदार/क्लर्क रविन्द्र नाथ मंडल (जेसी-242517डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011

नायब रिसालदार/क्लर्क संजीत कुमार भौमीक (जेसी-242519एफ), 01 अप्रैल 2011

नायब रिसालदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-242628एन), 13 अप्रैल 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुबे सिंह (जेसी-243224एक्स), 01 अप्रैल 2011

नायब रिसालदार अनिल कुमार (जेसी-244153एन), 03 मई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार समेन्द्र सिंह (जेसी-243432एम), 18 अप्रैल 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मकसूद खान (जेसी-244004ए), 22 मई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-243414के), 25 अप्रैल 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार संजीव कुमार (जेसी-243544एम), 01 मई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अनिल कुमार (जेसी-243921एक्स), 01 मई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जेसी-243654एफ), 10 मई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अप्रैल 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क गणेश चंद्र पंडा (जेसी-242520डब्ल्यू), 12 मई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार/क्लर्क सरत चंद्र नाईक (सं. 242521वाई), 01 मई 2011

नायब रिसालदार/क्लर्क निल कांता सरदुल सिंह (सं. 242528एच), 01 मई 2011

नायब रिसालदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-243073के), 01 मई 2011

नायब रिसालदार दासन वी के (जेसी-243549एल), 01 मई 2011

नायब रिसालदार सुरजीत सिंह (जेसी-243903पी), 04 जुलाई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रामवीर सिंह (जेसी-243958वाई), 01 जुलाई 2011

नायब रिसालदार हीरा लाल कुशवाह (जेसी-243609पी), 04 जुलाई 2011

नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-243550ए), 15 जुलाई 2011 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जलुई 2011 से दी जाती है)

नायब रिसालदार यश पाल (जेसी-242647वाई), 01 अगस्त 2011

नायब रिसालदार अजी कुमार के एस (जेसी-244012वाई), 01 अगस्त 2011

सुभव्रत करमाकर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 561, दिनांक 4 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

लेफ्टि कर्नल वी वी एस चन्द्रा (टीए-42125), इन्फैन्ट्री, 31 मई 2011 (अप)

लेफ्टि कर्नल संजय कुमार (टीए-42142), इन्फैन्ट्री, 31 जनवरी 2011 (अप)

लेफ्टि कर्नल नवरंग सैनी (टीए-41954), इन्फैन्ट्री, 31 मार्च 2011 (अप)

वी राजाराम
अवर सचिव

सं. 562, दिनांक 8 नवम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को प्रादेशिक सेना से बर्खास्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

बर्खास्त किया जाता है

कैप्टन अवतार सिंह, एसएम (टीए-42277), इन्फैन्ट्री, 01 फरवरी 2011

कैप्टन एस एस मोघे (टीए-42553), इन्फैन्ट्री, 07 नवम्बर 2010

कैप्टन ए के परमार (टीए-42555), इन्फैन्ट्री, 02 नवम्बर 2010

वी राजाराम
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd December 2011

No. 553, dated 2nd November 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

TERRITORIAL ARMY

(TERRITORIAL COMMISSION)

To be Lt

Venkatesh P (TA-42797), Infantry, 19 Feb 2011
 Sandeep Bhuker (TA-42798), Infantry, 25 Feb 2011
 Shobhit Gupta (TA-42777), Engr TA, 10 Sep 2010 (FN)
 Sanjay Priyadarshanam (TA-42778), Engr TA, 11 Sep 2010 (FN)
 Deepak Gupta (TA-42763), Engr TA, 12 Apr 2010 (FN)
 Arun Kumar Pahadia (TA-42772), Engr TA, 03 Jul 2009 (AN)
 Anand Shankar (TA-42773), Engr TA, 09 Jul 2009 (FN)
 Prabhakar Pandit (TA-42774), Engr TA, 15 Sep 2009 (FN)
 Kuldeep Singh Gusain (TA-42775), Engr TA, 07 Dec 2009 (FN)
 Rajkumar Patel (TA-42776), Engr TA, 23 Dec 2009 (FN)

V RAJARAM
 Under Secy

REGULAR ARMY

MILITARY NURSING SERVICES

(SHORT SERVICE COMMISSION)

No. 554, dated 2nd November, 2011—The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 05 Mar 2010 (Seniority from 05 Mar 2009 for Promotion and Pay Fixation being B Sc (Nursing) :—

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number & Date of Birth
 Lt Saranya V (NS-22274L), 01 Mar 1987
 Lt L Agath Shalini (NS-22276W), 21 Jul 1987
 Lt Pronita Das (NS-22277Y), 03 Oct 1982
 Lt S Nagajothi (NS-22278F), 25 May 1987
 Lt Subbuthai S (NS-22279K), 10 Feb 1984
 Lt Paul Shiny Mathew (NS-22280Y), 18 May 1985

Lt Aswathy Das (NS-22281F), 29 Apr 1987
 Lt Sonia (NS-22282K), 22 Feb 1987
 Lt Akilandeswari Mathialagan (NS-22283M), 15 Jul 1986
 Lt Hemalatha B (NS-22284P), 21 May 1988
 Lt Manju Bhargavi S (NS-22285X), 19 Nov 1984
 Lt Malathi M (NS-22286A), 29 Jul 1986
 Lt Neethu Mathew (NS-22287H), 20 Feb 1987
 Lt R Sunitha (NS-22288L), 28 Feb 1976
 Lt Shilpa J (NS-22289N), 19 May 1985
 Lt Gounder Vaidegi B (NS-22290H), 30 Jan 1988
 Lt Jeena Thomas (NS-22291L), 31 Aug 1984
 Lt Akhila G S (NS-22292N), 30 Apr 1986
 Lt Aneshya O N (NS-22293W), 29 May 1982
 Lt Mary Surega (NS-22294Y), 20 Aug 1983
 Lt Darsana K (NS-22295F), 25 Dec 1985
 Lt Soumya T (NS-22296K), 14 Jan 1986
 Lt Renuka D R (NS-22297M), 10 Jul 1986
 Lt Sandhya A (NS-22298P), 17 Aug 1984
 Lt Terese Rama Samy (NS-22299X), 26 Jul 1986
 Lt Susila T (NS-22300F), 15 May 1985
 Lt R V Shilpa (NS-22301K), 11 Oct 1986
 Lt Ruby Jose (NS-22302M), 29 Dec 1986
 Lt Gurjit Kaur (NS-22303P), 28 Feb 1987
 Lt Gayathri Pupparapu (NS-22304X), 11 Aug 1985
 Lt Aswathy Ganesh (NS-22305A), 13 Nov 1986
 Lt K Vimala (NS-22306H), 01 Mar 1988
 Lt Abirami Thirupathi (NS-22307L), 01 Jun 1984
 Lt Pooja Jain (NS-22308N), 08 Feb 1983
 Lt Shalini Devi B (NS-22309W), 12 Jul 1985
 Lt Pooja Dua (NS-22310L), 03 Mar 1988
 Lt Sarathi Devi M (NS-22311N), 23 Sep 1985
 Lt Gayathri Geetha S (NS-22312W), 23 Nov 1986
 Lt Pooja Parmar (NS-22313Y), 07 Aug 1985
 Lt Thenmozhi M Ariappan (NS-22314F), 29 Mar 1986
 Lt Kranthi Kumar U (NS-22315K), 17 Jul 1986
 Lt Priyanka M (NS-22316M), 20 Jun 1987

Lt Shiney Angline F (NS-22317P), 30 Mar 1987

Lt Indira G S (NS-22318X), 03 Dec 1985

Lt Kalaimagal V Alias Shyamala (NS-22319A), 02 Nov 1985

Lt Bindu Singla (NS-22320P), 27 Feb 1987

Lt Bandela Mani (NS-22321X), 15 Aug 1976

Lt Komandi Nalini (NS-22322A), 01 Jul 1986

Lt Krishna Priya R (NS-22323H), 19 Aug 1984

Lt Soumia Suresh (NS-22324L), 25 May 1986

Lt Rejila V (NS-22325N), 31 May 1985

Lt Yashaswini (NS-22326W), 27 Apr 1987

Lt Farhat Jamal (NS-22327Y), 15 Jul 1978

Lt Tina Sherpa (NS-22328F), 30 May 1981

Lt Nija S (NS-22329K), 17 Nov 1985

Lt G B Yogarani (NS-22330Y), 18 Apr 1987

Lt B Vyshnavi (NS-22331F), 26 Jun 1988

Lt Renjumol K (NS-22332K), 09 Oct 1985

Lt Revathy V (NS-22333M), 12 Mar 1986

Lt Jestimol George (NS-22334P), 12 Mar 1986

Lt Nirupama Mohanty (NS-22335X), 08 Apr 1986

Lt Kannaki Arumugam (NS-22336A), 30 Jun 1986

Lt J Priyalatha (NS-22337H), 22 Jun 1986

Lt Ramisetti Haritha (NS-22338L), 10 Jun 1986

Lt Shikha Sharma (NS-22339N), 27 Nov 1986

Lt Sharon David (NS-22340H), 07 Mar 1987

Lt Mohanapriya VR (NS-22341L), 09 May 1987

Lt Praveena T (NS-22342N), 09 Jul 1985

Lt Leja T Varghese (NS-22343W), 18 Mar 1987

Lt Rajbir Kaur (NS-22344Y), 14 Jun 1987

Lt V Pallavi (NS-22345F), 07 Mar 1987

Lt Jyothi Jose (NS-22346K), 25 May 1984

Lt Prameela Rani (NS-22347M), 18 Apr 1987

Lt Anupama Ande (NS-22348P), 12 Aug 1986

Lt Swathi Meduri (NS-22349X), 20 Jun 1984

Lt Swapna Nethi (NS-22350M), 06 Apr 1986

Lt Usha Devi Pentakota (NS-22351P), 10 Jan 1987

Lt Divya N (NS-22352X), 07 Nov 1987

Lt Kirandēep Kaur (NS-22353A), 10 Jan 1988

Lt Revathi Arputham (NS-22354H), 18 Jan 1988

Lt K M Mrunalini (NS-22355L), 31 Mar 1986

Lt V Vijeya Priya (NS-22356N), 01 Apr 1981

Lt Hema Sharma (NS-22357W), 24 Feb 1983

Lt Sangeetha Yatheendran (NS-22358Y), 30 Nov 1985

Lt Bhuvaneswari D (NS-22359F), 12 Nov 1987

Lt Shiji C (NS-22360W), 23 May 1987

Lt G Hemapriya (NS-22361Y), 28 Jun 1987

Lt Bhavya O K (NS-22362F), 30 Apr 1986

Lt Rajeshwari M U (NS-22363K), 23 Jan 1985

Lt Lavanya L V (NS-22365P), 28 Aug 1986

Lt Rajani A (NS-22366X), 01 Jul 1988

Lt Jasmin Joy (NS-22367A), 01 Jan 1987

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGFAMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 01 Feb 2010 (Seniority from 01 Feb 2009 for Promotion and Pay Fixation being B Sc (Nursing) :—

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number & Date of Birth

Lt Sreerekha R Kaimal (NS-22071F), 10 May 1985

Lt Gayathri B (NS-22072K), 03 Jun 1986

Lt Greeshma Mohan (NS-22073M), 05 Feb 1986

Lt Mercy Pradhima M (NS-22074P), 10 Jan 1986

Lt Rupinder Karu (NS-22075X), 23 Sep 1985

Lt Nimisha (NS-22076A), 10 Nov 1988

Lt Rubha KN (NS-22077H), 23 Jan 1987

Lt M Priyatharshini (NS-22078L), 25 Jul 1984

Lt Hema Santha Mary S (NS-22079N), 07 Jul 1985

Lt Gomathi P (NS-22080H), 14 Oct 1987

Lt A K Harika (NS-22081L), 29 Jan 1985

Lt Hemalatha G L (NS-22082N), 03 May 1987

Lt Annalakshmi B (NS-22083W), 07 Jul 1986

Lt Anne Michael (NS-22084Y), 16 Jun 1980	Lt Lalhmingmawii Khiangte (NS-22122K), 30 May 1985
Lt Milu Rani Varghese (NS-22085F), 16 Nov 1986	Lt Geethu K G (NS-22123M), 19 Jun 1987
Lt Jyoti Kaswan (NS-22086K), 18 Oct 1985	Lt Uma D (NS-22124P), 09 Aug 1986
Lt Kumari Ranjana (NS-22087M), 14 Jan 1987	Lt Aswathy V S (NS-22125X), 09 Jan 1987
Lt Pillai Rejitha Radhakrishna (NS-22088P), 14 May 1985	Lt Reena Chaudhary (NS-22126A), 19 Jan 1986
Lt Simily Mary Simon (NS-22089X), 03 Nov 1986	Lt Mahnaz Perveen (NS-22127H), 25 Sep 1984
Lt Saritha S (NS-22091P), 24 Nov 1985	Lt Akhila G V (NS-22128L), 17 May 1987
Lt K Pushpa (NS-22092X), 20 Dec 1983	Lt Vijitha V Nair (NS-22129N), 19 Jul 1987
Lt Sumi Chand (NS-22093A), 22 Feb 1985	Lt Pullela Nanditha (NS-22130H), 14 Nov 1986
Lt Leena Poply (NS-22094H), 12 Sep 1987	Lt Sandhya Sankari (NS-22131L), 16 Mar 1984
Lt Sonia Rani (NS-22095L), 06 May 1986	Lt Kamaljeet Kaur (NS-22132N), 18 Nov 1984
Lt Ritu (NS-22096N), 09 Nov 1987	Lt S Padma (NS-22133W), 07 Oct 1984
Lt Aasha Biliki (NS-22097W), 14 Nov 1986	Lt Surya P S (NS-22134Y), 23 Apr 1986
Lt Amrita Rani Pal (NS-22098Y), 11 Sep 1987	Lt Soly Mercy K (NS-22135F), 07 May 1986
Lt Sapna Sharma (NS-22099F), 14 Aug 1985	Lt Rekha Rani (NS-22137M), 25 Dec 1987
Lt Sreelekshmi G (NS-22100L), 15 May 1984	Lt Divya OM (NS-22138P), 25 May 1986
Lt Enbarasi P (NS-22101N), 03 Jun 1987	Lt Navpreet Kaur (NS-22139X), 08 Nov 1987
Lt Shivani (NS-22102W), 25 Jul 1985	Lt Aarti Gupta (NS-22140M), 06 Oct 1985
Lt Vinay Kirti (NS-22103Y), 09 Nov 1987	Lt Gurjit Kaur (NS-22141P), 15 Feb 1987
Lt Princy Lazar (NS-22104F), 18 Aug 1985	Lt Poonam Kumari (NS-22142X), 22 Jan 1988
Lt Rincy John (NS-22105K), 15 Dec 1985	Lt Raksha Kumari (NS-22143A), 10 Jul 1985
Lt Ruman (NS-22106M), 21 Dec 1986	Lt Pushpalatha T (NS-22144H), 10 Aug 1986
Lt Gladia Mathews (NS-22107P), 30 May 1987	Lt D S Himabindu (NS-22145L), 11 Nov 1987
Lt Viarmani C (NS-22108X), 25 May 1984	Lt Surya K (NS-22146N), 24 May 1987
Lt Flory Ann Joseph (NS-22109A), 11 Dec 1986	Lt Shainy Francis (NS-22147W), 15 Mar 1987
Lt Pushpa Rani (NS-22110P), 14 Feb 1986	Lt Praveena P S (NS-22148Y), 21 Dec 1986
Lt Jincy Philip (NS-22111X), 28 Jun 1987	Lt T Malathi S (NS-22149F), 06 May 1988
Lt Gomu M (NS-22112A), 08 May 1985	Lt Megala (NS-22150W), 09 Dec 1986
Lt Seema (NS-22113H), 10 Dec 1988	Lt P Gracy Packiathai (NS-22151Y), 10 Apr 1984
Lt Gigimol T (NS-22114L), 25 Jun 1987	Lt Bincy Thomas (NS-22152F), 15 Mar 1986
Lt Kezia Rosline Singamala (NS-22115N), 08 Mar 1987	Lt Chhaya (NS-22153K), 08 Jun 1986
Lt Julie Abraham (NS-22116W), 09 Sep 1985	Lt Tarveen Kaur (NS-22154M), 18 Mar 1986
Lt Indumathi V (NS-22119K), 19 Mar 1983	Lt Lima Mathew (NS-22155P), 12 Feb 1986
Lt Poonam Rani (NS-22120Y), 01 Mar 1986	Lt P Stela Margret (NS-22156X), 24 Apr 1985
Lt Kavitha Karre (NS-22121F), 14 Mar 1987	Lt Amandeep Kaur (NS-22157A), 15 Jul 1987
	Lt Jasmin Subha Josev (NS-22158H), 20 May 1982

Lt Rupinder Kaur (NS-22159L), 22 Oct 1987
 Lt Leena Shaiju (NS-22160A), 25 Nov 1978
 Lt Shalini P S (NS-22162L), 05 Mar 1983
 Lt Reny Varghese (NS-22163N), 30 Jul 1983
 Lt Harpreet Kaur (NS-22164W), 21 Apr 1987
 Lt Tanu Kumari (NS-22165Y), 14 Dec 1986
 Lt E Nadhiya (NS-22166F), 05 Jun 1986
 Lt Kumari R (NS-22167K), 17 Dec 1984
 Lt Amrita Pandey (NS-22168M), 08 Apr 1987
 Lt Vishnupriya (NS-22169P), 17 Mar 1987
 Lt Ginila L (NS-22170K), 09 Jul 1985
 Lt Ambily K Baby (NS-22171M), 24 May 1987
 Lt G Ramya (NS-22172P), 06 May 1987
 Lt Anamika Salgotra (NS-22173X), 01 Dec 1987
 Lt Manju Anirudhan (NS-22174A), 10 Aug 1979
 Lt Madhu (NS-22175H), 10 Oct 1983
 Lt Smitha P Puthoor (NS-22176L), 05 Jan 1983
 Lt Pavithra (NS-22177N), 27 Sep 1985
 Lt Navjot Kaur (NS-22178W), 15 Aug 1985
 Lt Anuroopa P A (NS-22179Y), 24 May 1986
 Lt Rajwinder Kaur (NS-22180N), 01 Jan 1986
 Lt Meena Kumari (NS-22181W), 01 Jul 1987
 Lt Remya R (NS-22182Y), 26 May 1987
 Lt Ramneek Kaur (NS-22183F), 20 Feb 1987
 Lt V Annogen Varghese (NS-22184K), 19 Apr 1985
 Lt Prisikani (NS-22185M), 28 Aug 1984
 Lt N Keerthi (NS-22186P), 24 Mar 1987
 Lt Kumari Alka (NS-22187X), 10 Feb 1987
 Lt Ranjit Kaur (NS-22188A), 03 Nov 1984
 Lt Doly Sharma (NS-22189H), 21 Aug 1987
 Lt Ruchita Sharma (NS-22190X), 14 Nov 1987
 Lt Usharani N (NS-22191A), 31 May 1984
 Lt Seenii Thai P (NS-22192H), 16 May 1987
 Lt Mithlesh Kumari Ankodia (NS-22193L), 09 Nov 1982
 Lt Parambir Kaur (NS-22194N), 15 Sep 1986
 Lt Jamuna Joseph (NS-22195W), 03 Feb 1987
 Lt R Christy Raj (NS-22196Y), 19 Jul 1984

Lt Deepa V R (NS-22197F), 03 Feb 1985
 Lt Rajani P S (NS-22198K), 06 Jun 1986
 Lt K Geetha Lakshmi (NS-22199M), 29 Oct 1986
 Lt Manju Punia (NS-22200W), 23 Aug 1986
 Lt Freeda K (NS-22201Y), 15 Apr 1987
 Lt Vincy P Varghese (NS-22202F), 26 Feb 1987
 Lt Damandeep Kaur (NS-22203K), 24 Jul 1987
 Lt YS Swapnasudha (NS-22204M), 12 Apr 1984

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with A1 17/96 with effect from 28 Jun 2010 (Seniority from 28 Jun 2009 for Promotion and Pay Fixation being B.Sc. (Nursing) :—

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number & Date of Birth

Lt Amitha Mathew K (NS-22376F), 09 Jul 1987

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with A1 17/96 with effect from 01 Feb 2010 (Seniority from 01 Feb 2008 for Promotion and Pay Fixation being M.Sc. (Nursing) :—

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number & Date of Birth

Lt Rekha S (NS-22070Y), 07 Aug 1981

Lt Lavanya Kannan (NS-22117Y), 11 Jul 1978

Lt Jayalakshmi Sakhare (NS-22118F), 15 Apr 1982

Lt Anusuya R (NS-22136K), 16 Jul 1980

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with A1 17/96 with effect from 23 Nov 2009 (Seniority from 23 Nov 2007 for Promotion and Pay Fixation being M.Sc. (Nursing) :—

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number & Date of Birth

Lt Bajjal Rajani (NS-22069K), 31 Oct 1983

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 05 Mar 2010 (Seniority from 05 Mar 2008 for promotion and pay fixation being Msc (Nursing)

To be Lt on Prob

Rank & Name, Pers No. & Date of Birth

Lt Arunjunai Devi R (NS-22275N), 22 Jun 1982

Lt Geeta Rani Nimmala (NS-22364M), 13 Feb 1982

J K GREWAL
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 555, dated 2nd November 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt Vinay Sharma (TA-42571), Inf, 04 Jul 2011

Capt Ayub Khan (TA-42572), Inf, 07 Jul 2011

To be Capt

Lt Kapil Dev Pandey (TA-42683), Inf, 12 Jun 2011

Lt Shrihari Kugaji (TA-42685), Inf, 16 Jun 2011

Lt Kanwar Preet Singh Sandhu (TA-42672), Inf, 11 Dec 2010

Lt Nongmeikapam Danish (TA-42681), Inf, 14 May 2011

Lt Jitendra Jeet Singh (TA-42682), Inf, 19 May 2011

V RAJARAM
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 556, dated 3rd November 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Sub Maj (RT Pandit)

Sub Maj (RT Pandit) T R Khankriyal (JC-131921W), 01 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj (RT Pandit) A N Jha (JC-164878A), 01 Apr 2010

To be Sub (RT Pandit)

Sub (RT Pandit) U S Shukla (JC-724052F), 01 Dec 2008

Sub (RT Pandit) S K Tripathi (JC-724056X), 01 Dec 2008

Sub (RT Pandit) Rakesh (JC-724054M), 01 Dec 2008

Sub (RT Pandit) J R Sharma (JC-724053K), 01 Dec 2008

Sub (RT Pandit) R K Pandey (JC-724055P), 01 Jan 2009

Sub (RT Pandit) A K Dwivedi (JC-724104M), 01 Aug 2009

Sub (RT Pandit) R N Pandey (JC-724102F), 01 Oct 2009

Sub (RT Pandit) H S Shukla (JC-724286L), 01 Jan 2010

Sub (RT Pandit) R C Mishra (JC-724287N), 01 Feb 2010

Sub (RT Pandit) Ranvijai Singh (JC-724103K), 01 Feb 2011

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR
BRANCH

The President is pleased to make the following
Appointments/Promotions :—

To be Sub RT Pandit

Nb Sub Arvind Pandey (JC-754516H), 01 Aug 2011

Nb Sub Ved Prakash Tiwari (JC-754518N), 01 Aug 2011

To be Sub Maj DW

Sub Surya Pratap Tripathi (JC-760446L), 01 Aug 2011

To be Sub Maj Master Tech B Veh

Sub Md Ali Shan (JC-754628H), 01 Aug 2011

To be Sub Maj Master Tech Networking

Sub Naresh Kumar Mehta (JC-755654W), 01 Aug 2011

Sub Mithilesh Gupta (JC-755652L), 03 Aug 2011/01 Aug 2011*

To be Sub Maj Master Tech Elect

Sub Birbal Prasad (JC-755550K), 01 Aug 2011

Sub Kunwar Singh (JC-755548X), 05 Aug 2011/01 Aug 2011*

To be Sub Maj Artsn Metallurgy

Sub Tazuddin Ahmied (JC-757977X), 04 Aug 2011/01 Aug 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

To be Nb Sub Clk (SD)

Tanaji Vishnu Aradalkar (No. 14597743H now JC-766318K), 23 Aug 2011/01 Aug 2011*

Satish Kumar (No. 14593709L now JC-766309H), 20 Aug 2011/01 Aug 2011*

Shirsath Chandra Kant Dharmaraj (No. 14596167X now JC-766311A), 18 Aug 2011/01 Aug 2011*

To be Nb Sub Opr & DVR (Rec)

Ram Avtar (No. 14590045X now JC-766286M), 01 Sep 2011

Mohan Singh Yadav (No. 14586659H now JC-766281N), 23 Aug 2011

To be Nb Sub Skt

Ashok Kumar (No. 14614362A now JC-766296W), 18 Aug 2011/01 Aug 2011*

Gynandra Verma (No. 14613879Y now JC-766298F), 25 Aug 2011/01 Aug 2011*

Jadhav Krishna Shivaji (No. 14614353Y now JC-766295N), 01 Aug 2011

Kartar Singh (No. 14614313X now JC-766291X), 20 Aug 2011/01 Aug 2011*

To be Nb Sub DW

Govind Dass Ahirwar (No. 14590945F now JC-766215L), 30 Aug 2011/01 Jul 2011*

Slkandar Prasad Yadav (No. 14605162H now JC-766222F), 13 Aug 2011/01 Jul 2011*

Pawan Kumar (No. 14603389X now JC-766221Y), 10 Aug 2011/01 Jul 2011*

Anil Kumar (No. 14593941W now JC-766267F), 30 Aug 2011/01 Aug 2011*

Rana Prasad Singh (No. 14605164N now JC-766275A), 23 Aug 2011/01 Aug 2011*

Kamlesh Kumar (No. 14602609K now JC-766272M), 23 Aug 2011/01 Aug 2011*

Subash Chandra (No. 14603072H now JC-766274X), 17 Aug 2011/01 Aug 2011*

Umesh Kumar (No. 14593780Y now JC-766268K), 23 Aug 2011/01 Aug 2011*

Upendra Prasad (No. 14601707X now JC-766270F), 19 Aug 2011/01 Aug 2011*

Rajat Singh (No. 14605201W now JC-766280L), 01 Sep 2011

*(Gtd ante dated seniority)

To be Nb Sub SKT

Vinod Kumar (No. 14614023A now JC-766238M), 11 Aug 2011/01 Jul 2011*

Bansi Lal (No. 14613684N now JC-766232L), 30 Jul 2011/01 Jul 2011*

Vibhu Dath R (No. 14614293P now JC-766290P), 13 Aug 2011/01 Aug 2011*

Dhadwe Sanjay Sambharao (No. 14614328A now JC-766293H), 01 Aug 2011

To be Nb Sub DVR (MT)

Samiran Roy (No. 14602800L now JC-766271K), 15 Aug 2011/01 Aug 2011*

Kishana Nand (No. 14603569A now JC-766259H), 05 Aug 2011/01 Aug 2011*

To be Nb Sub Clk (SD)

Prem Chand Sharma (No. 14597924N now JC-766317F), 17 Aug 2011/01 Aug 2011*

Abdul Hafeez (No. 14597943Y now JC-766320F), 17 Aug 2011/01 Aug 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Artzn Wood Work

Ram Pal Singh (No. 14591198N now JC-765571Y), 01 Dec 2010

Satendra Kumar Singh (No. 14589156H now JC-766210W), 15 Jul 2011/01 May 2011*

Hav to be Nb Sub Tech RDR

Pashupati Nath Singh (No. 14592622X now JC-765867X), 01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Tech Opto Ele

Ram Narayan Yadav (No. 14594640Y now JC-766181H), 06 Jun 2011/01 Jun 2011*

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Thangappan R (No. 14583464M now JC-766188M), 01 Jul 2011

Shaik Mahammad Rasool (No. 14583465P now JC-766223K), 08 Jul 2011/01 Jul 2011*

Harbir Singh (No. 14584940M now JC-766256P), 01 Aug 2011

Rajesh Kumar Tiwari (No. 14584329L now JC-766257X), 01 Aug 2011

Hav to be Nb Sub Support Staff

Rameshwar Prasad (No. 14594388L Now JC-766205F), 02 Jul 2011/01 Jul 2011*

Ram Naresh (No. 14603317N Now JC-766262H), 04 Aug 2011/01 Aug 2011*

Sahukari Lokeswara Rao (No. 14594769M Now JC-766261A), 04 Aug 2011/01 Aug 2011*

Hav to be Nb Sub Artzn Metallurgy

Samar Kishor (No. 14614814X Now JC-766209X), 04 Jul 2011/01 Jul 2011*

Dipak Chandra Baglari (No. 14612298P Now JC-766207M), 01 Jul 2011

Ghanshyam Kumar (No. 14616401M Now JC-766208P), 11 Jul 2011/01 Jul 2011*

Hav to be Nb Sub Armt Tech AFV AD

Bhola Ram Pal (No. 14585158W Now JC-766225P), 28 Jul 2011/01 Jul 2011*

Kamadi AK Verma (No. 14587460N Now JC-766226X), 01 Aug 2011

Hav to be Nb Sub Welder

Kannan D (No. 14644262K Now JC-766243X), 25 Jul 2011/01 Jul 2011

Rella Yogeswar Rao (No. 14589559H Now JC-766244A), 01 Aug 2011

Hav to be Nb Sub Auto Tech Engr Eqpt

Anil Kumar (No. 14588815A Now JC-766252Y), 04 Aug 2011/01 Jul 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

To be Nb Sub DW

Deepa Narayan Patel (No. 14604377P Now JC-766260X), 10 Aug 2011/01 Aug 2011*

Rezual Karim (No. 14602090Y Now JC-766217W), 29 Jul 2011/01 Jul 2011*

Kamble Baban Kisan (No. 14592647K now JC-766211P), 26 Jul 2011/01 Jul 2011*

Golak Pati Mandal (No. 14586302M Now JC-766214H), 11 Jul 2011/01 Jul 2011*

Shishu Pal Singh (No. 14600470Y Now JC-7662269M), 03 Aug 2011/01 Aug 2011*

Sree Nivasan R (No. 14593991F Now JC-766213A), 30 Jul 2011/01 Jul 2011*

To be Nb Sub SKT

Sheesh Pal (No. 14614047K Now JC-766077P), 13 Aug 2011/01 Apr 2011*

Sushil Mutsuddi (No. 14613085N Now JC-766228H), 02 Aug 2011/01 Aug 2011*

Madhu Sudhanan Nair KB (No. 14614303N Now JC-766237K), 01 Aug 2011/01 Jul 2011*

Sunder Lal (No. 14598084L Now JC-766231H), 01 Aug 2011/01 Jul 2011*

Kanwar Singh (No. 14614042L Now JC-766230A), 01 Aug 2011/05 Jun 2011*

Medhekar Kumar Gulab Rao (No. 14614391P Now JC-766308A), 17 Aug 2011/01 Aug 2011*

To be Nb Sub Clk (SD)

Sukhbir Singh (No. 14593054K Now JC-766250N), 23 Jul 2011/01 Jul 2011*

Dinesh Prasad (No. 14597723P Now JC-766314N), 18 Aug 2011/01 Aug 2011*

Nandan Singh Dobal (No. 14597722M Now JC-766313L), 18 Aug 2011/01 Aug 2011*

Rishi Pal (No. 14597733Y Now JC-766315W), 19 Aug 2011/01 Aug 2011*

Prabhu Singh (No. 14597738X Now JC-766316Y), 19 Aug 2011/01 Aug 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

To be Nb Sub Opr Dvr (Rec)

S Paul Raj (No. 14589636M Now JC-766204Y), 13 Jul 2011/01 Jul 2011*

Nagendra Prasad Gupta (No. 14587958N Now JC-766202N), 01 Jul 2011

Mohammad Mokhtar (No. 14585545L Now JC-766248W), 22 Jul 2011/01 Jul 2011*

To be Nb Sub Dvr (MT)

Vijay Kumar (No. 14593938W Now JC-766212X), 09 Jul 2011/01 Jul 2011*

Arjun Singh (No. 14585575H Now JC-766219F), 04 Jul 2011/01 Jul 2011*

Raj Kumar Singh (No. 14594039F Now JC-766218Y), 23 Jul 2011/01 Jul 2011*

To be Nb Sub SKT

Pradeep Kumar T R (No. 14614273F Now JC-766235Y), 18 Jul 2011/01 Jul 2011*

Reji T K (No. 14614277X Now JC-766236F), 14 Jul 2011/01 Jul 2011*

Joy Samuel (No. 14614307K Now JC-766242P), 22 Jul 2011/01 Jul 2011*

Desh Raj Singh (No. 14613889H Now JC-765309W), 01 Oct 2010

Himansu Chanda (No. 14613840M Now JC-765930F), 07 Jul 2011/01 Mar 2011*

Sethumandhavan A K (No. 14614203H Now JC-766240K), 26 Jul 2011/01 Jul 2011*

Rajbir Singh (No. 14614216A Now JC-766234W), 18 Jul 2011/01 Jul 2011*

To be Nb Sub Tech SA

Shyam Kishor (No. 14576377W Now JC-765156X), 02 Jul 2010/23 May 2010*

To be Nb Sub Clk (SD)

Badan Singh (No. 14592269W Now JC-766249Y),
21 Jul 2011/01 Jul 2011*

Ashok Kumar (No. 14593507K Now JC-766251W),
20 Jul 2011/01 Jul 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

To be Nb Sub SKT

Mahender Singh (No. 14613932Y Now JC-766233N),
19 Aug 2011/01 Jul 2011*

Ravande Balaso Pandurang (No. 14614336Y Now JC-
766299K), 17 Aug 2011/01 Aug 2011*

Sudhin Kumar Das (No. 14614325M Now JC-766292A),
26 Aug 2011/01 Aug 2011*

Harish Kumar Singh (No. 14614385F Now JC-766307X),
26 Aug 2011/01 Aug 2011*

Md Zuber Alam (No. 14614378L Now JC-766306P),
27 Aug 2011/01 Aug 2011*

Madhu K (No. 14614283L Now JC-766241M),
20 Aug 2011/01 Jul 2011*

Magar Shankar Baba (No. 14614370Y Now JC-766297Y),
25 Aug 2011/01 Aug 2011*

To be Nb Sub Clk (SD)

Sudarshan Singh Negi (No. 14597926Y Now JC-766319M),
18 Aug 2011/01 Aug 2011*

Abhimanyu Sahu (No. 14594367P Now JC-766310X),
25 Aug 2011/01 Aug 2011*

To be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Mahaveer Singh (No. 14589704P Now JC-766284F),
01 Sep 2011

Bipin Kumar Pandey (No. 14587866F Now JC-766282W),
29 Aug 2011/01 Jul 2011*

Satendra Nath Pandey (No. 14590688P Now JC-766289A),
01 Sep 2011

Choodamani Koli (No. 14588646K Now JC-766339A),
02 Sep 2011/01 Jul 2011*

To be Nb Sub DW

Suresh Chand (No. 14595442A Now JC-766216N),
01 Aug 2011/01 Jul 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

No. 557, dated 3rd November 2011—The President is
pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
REGIMENT OF ARTILLERY

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Raghuveer Prasad Sharma (JC-272248K), 02 Aug
2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Gee Varghese R (JC-271562L), 29 Jun 2010/
01 May 2010*

Nb Sub Dinesh Kumar Dhabhai (JC-271555P), 04 Oct
2010/01 Aug 2010*

Nb Sub BA Selvam (JC-271667P), 08 Jan 2011/10 Aug
2010*

Nb Sub Narayan Singh (JC-271222H), 04 Jul 2011/01 Sep
2010*

Nb Sub Suresh Prasad Singh (JC-270479F), 25 Apr 2011/
01 Jan 2011*

Nb Sub Niranjana Jha (JC-271212Y), 07 Mar 2011/27 Nov
2010*

Nb Sub Gian Singh (JC-270142Y), 13 Jul 2011/01 Feb
2011*

Nb Sub Ranjit Singh (JC-271336N), 20 Feb 2011/01 Feb
2011*

Nb Sub Kodag Hanmant Mahadev (JC-271157F), 30 Mar
2011/01 Mar 2011*

Nb Sub Amarnath Singh (JC-272839L), 04 Jul 2011/
01 Apr 2011*

Nb Sub Bhadrans R (JC-270538H), 17 Jun 2011/20 Apr
2011*

Nb Sub Ram Nandan Singh Yadav (JC-271095Y), 03 Aug
2011/22 Apr 2011*

Nb Sub Ingale Sanjay Madhavrao (JC-272481X), 27 Apr
2011/05 Dec 2010*

Nb Sub K Ramachandran (JC-271000N), 30 Jun 2011/
04 Mar 2011*

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-271302A), 01 Jun 2011/
20 Apr 2011*

Nb Sub Yadav Lal Prasad (JC-271204A), 31 May 2011/
01 May 2011*

Nb Sub Velayudhan Nair K (JC-271627N), 01 May 2011

Nb Sub Dick Bir Tamang (JC-273065A), 01 Jun 2011/
01 May 2011*

Nb Sub Vijay Shankar Rai (JC-274111W), 01 Jul 2011/
30 Aug 2010*

Nb Sub Shiv Prasad (JC-272972N), 16 Jul 2011/31 Aug 2010*

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-274050K), 05 Jun 2011/01 Feb 2011*

Nb Sub Youraj Thapa (JC-274531W), 17 Jul 2011/26 Feb 2011*

Nb Sub Virendra Singh (JC-270861X), 01 Jul 2011

Nb Sub Govinda Bhikana Chawhan (JC-271423F), 01 Jul 2011

Nb Sub Ganeshwar Mohanty (JC-271512A), 04 Jul 2011/01 Jul 2011*

Nb Sub K Vellu Samy (JC-270960A), 18 Jul 2011/01 Jul 2011*

Nb Sub Vipin Kumar Singh (JC-270815H), 01 Jul 2011

Nb Sub Raj Singh Malhan (JC-270886K), 01 Jul 2011

Nb Sub Vishnu Dattu Bade (JC-271116K), 08 Jul 2011/01 Jun 2011*

Nb Sub Man Mohan (JC-271297A), 01 Jul 2011

Nb Sub Vijay Bahadur Yadav (JC-271248X), 01 Jul 2011

*(Gtd Seniority wef)

ARMY BRANCH REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

The President is pleased to make the following promotions:—

To be Sub SKT

Nb Sub S Mani (JC-663000M), 30 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 07 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Pushpendra Singh (JC-662920X), 09 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub SKT

Hav Awdhesh Kumar (No. 6381922K now JC-667812X), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Rajeev Kumar (No. 6387859W now JC-667813A), 16 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Apr 2011 without effect on pay & allowances)

Hav K Suresh (No. 6384320F now JC-667832L), 27 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Apr 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Anil Kumar P (No. 6387075P now JC-667833N), 25 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2011 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub Personal Assistant

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 2595500P now JC-667804Y), 27 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Balaram Dutta (No. 14916415L now JC-667805F), 01 Jul 2011

Hav Amjad Sultan (No. 13691258W now JC-667815L), 21 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Apr 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Jasbir Singh (No. 2482276A now JC-667826X), 01 Aug 2011

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Baru Ram Dhillon (No. 6383652Y now JC-667806K), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Apr 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Ghadage Dilip Dashrath (No. 6385512L now JC-667807M), 01 Jun 2011

Hav Manoj Kumar (No. 6381824K now JC-667808P), 01 Jul 2011*

Hav Shinde Sanjiv Maruti (No. 6385422K now JC-667809X), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Ramendra Sharma (No. 6385591L now JC-667810M), 01 Jul 2011

Hav Vijay Kumar Yadav (No. 6385663K now JC-667811P), 01 Jul 2011

Hav Ali Akbar (No. 6385899Y now JC-667816N), 01 Aug 2011

Hav Rohi Tashwa Kumar Jangid (No. 6389231M now JC-667818Y), 25 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Satya Pal Singh (No. 6383887L now JC-667819F), 25 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Raj Kishor Pandey (No. 6383906L now JC-667820W),
01 Aug 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Aug 2011
without effect on pay & allowances)

Hav Bhanwara Ram Nain (No. 6386015N now JC-
667821W), 01 Aug 2011

Hav K Kamalanathan (No. 6386028L now JC-667822F),
01 Aug 2011

Hav Hridaya Ram Yadav (No. 6385850H now JC-667823K),
01 Aug 2011*

Hav Anil Kumar Mishra (No. 6385857M now JC-
667824M), 01 Aug 2011

Hav Krishna Singh (No. 6385896L now JC-667825P),
01 Aug 2011

Hav Vijayan V (No. 6382842Y now JC-667827A), 01 Aug
2011*

Hav T Mahesh Madhukar (No. 6382353N now JC-
667828H), 01 Aug 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jun 2011
without effect on pay & allowances)

Hav Om Prakash (No. 6385786W now JC-667829L),
01 Aug 2011

Hav Ramanuj Singh (No. 6385894A now JC-667830A),
01 Aug 2011

Hav Birendra Kumar Mishra (No. 6385895H now JC-
667831H), 01 Aug 2011*

Hav Satish Kumar (No. 6385933N now JC-667831F),
01 Sep 2011

To be Sub Personal Assistant

Nb Sub Bajarang Bali Singh (JC-665039X), 01 Jul 2011

Nb Sub James KC (JC-665040M), 01 Aug 2011

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Jagdish Chand (JC-664515Y), 27 Jul 2011*

Nb Sub Ramamaya Bose (JC-664527N), 17 Aug 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 07 Dec 2010
without effect on pay & allowances)

Nb Sub Rudra Pratap Singh (JC-664769W), 22 Jul 2011*

Nb Sub Kailash Singh Karnavanshi (JC-664771N), 28 Jul
2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2011
without effect on pay & allowances)

Nb Sub Bishnu Ram Ambedkar (JC-664888M), 08 Aug
2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2011
without effect on pay & allowances)

Nb Sub Dinesh Prasad (JC-664807F), 09 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2011 without
effect on pay & allowances)

Nb Sub Jagdish Singh (JC-664804N), 15 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2011 without
effect on pay & allowances)

Nb Sub Harish Chandra (JC-664805W), 25 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2011 without
effect on pay & allowances)

Nb Sub Manoj Kumar Mohanty (JC-664783H), 01 Aug
2011

Nb Sub Sayed Md Zahid Hussain (JC-664784L), 01 Aug
2011

Nb Sub Ajit Kumar (JC-664870W), 01 Aug 2011

Nb Sub Suresh M (JC-664868Y), 01 Aug 2011

RAVINDERA KUMAR ARORA
Under Secy

(ARMY BRANCH)

No. 558, date 3 November 2011—The President is pleased
to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Subs Sub (Clerks)

Nb Sub (Clk) Rajakumaran N (JC-421190Y), 01 Aug 2011

Nb Sub (Clk) Pijush Kanti Sarkar (JC-420979M), 01 Sep
2011

SUBHABARTA KARMAKAR
Under Secy

(ARMY BRANCH)

No. 559, date 4 November 2011—The President is pleased
to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY MEDICAL CORPS

To be Subs Nb Sub (AMB Asstt)

Hav Ram Prakash (No. 13963009A now JC-697824F),
01 Jan 2011*

Hav Sankor Ram Ray (No. 13963062L now JC-697895H),
01 Jan 2011*

Hav Ashok Kumar Mishra (No. 13963095W now JC-697825K), 01 Jan 2011*

Hav Shaik Karimulla (No. 13962183A now JC-697826M), 01 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allces)

Hav Komal Guria (No. 13963132Y now JC-697896L), 01 Feb 2011*

Hav Shankar Singh (No. 13963143L now JC-697897N), 01 Feb 2011*

Hav Dinesh Kumar (No. 13963146Y now JC-697898W), 01 Feb 2011*

Hav Tapan Kumar Datta (No. 13963168X now JC-697905F), 01 Feb 2011*

Hav Chandra Bhushan Singh (No. 13963196K now JC-697934W), 01 Feb 2011*

Hav Som Bahadur Thapa (No. 13963188L now JC-697899Y), 01 Feb 2011*

Hav Dalip Singh (No. 13963221X now JC-697935Y), 01 Feb 2011*

Hav Dharendra Singh (No. 13963323N now JC-697900H), 01 Feb 2011*

Hav B Settu (No. 13963233M now JC-697936F), 01 Feb 2011*

Hav Ratan Kumar Mondal (No. 13962850H now JC-697901L), 01 Feb 2011*

Hav Krishan Lal (No. 13963482L now JC-697904Y), 01 Feb 2011*

Hav Ramvir Singh (No. 13963492P now JC-697902N), 01 Feb 2011*

Hav Malaya Kumar Samal (No. 13963529L now JC-697937K), 01 Feb 2011*

Hav Balwant Singh (No. 13963540K now JC-697903W), 01 Feb 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allces)

Hav Ashok Kumar CV (No. 13963555M now JC-697938M), 01 Mar 2011*

Hav Rajinder Singh (No. 13963551W now JC-697939P), 01 Mar 2011*

Hav Lala Ram (No. 13963628N now JC-697940K), 01 Mar 2011*

Hav Anand Singh (No. 13963706A now JC-697941M), 01 Mar 2011*

Hav Rakesh Kumar Singh (No. 13963712N now JC-697942P), 01 Mar 2011*

Hav Gouri Shankar Ojha (No. 13963734M now JC-697943X), 01 Mar 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allces)

Hav Surendran K (No. 13963786H now JC-697993H), 01 Apr 2011*

Hav Kundan Singh (No. 13963802P now JC-697989A), 01 Apr 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allces)

Hav Lal Bahadur Singh (No. 13963779M now JC-698044H), 01 May 2011*

Hav Habibullah Khan (No. 13963840L now JC-698045L), 01 May 2011*

Hav Ashok Kumar (No. 13962836W now JC-698046N), 01 May 2011*

Hav Mohana Kumar S (No. 13964017L now JC-698047W), 01 May 2011*

Hav Panchanana Parida (No. 13964042K now JC-698069P), 01 May 2011*

Hav Ram Lal Mishra (No. 13964025K now JC-698048Y), 01 May 2011*

Hav R Gurusamy (No. 13964029A now JC-698049F), 01 May 2011*

Hav Tiku Ram Jat (No. 13964060M now JC-698050W), 01 May 2011*

Hav Lala Ram (No. 13964224X now JC-698068M), 01 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011 without effect on pay and allces)

Hav Rajendra Adapa Limbikai (No. 13964278Y now JC-698097F), 01 Jun 2011*

Hav Harendr Yadwa (No. 13964369H now JC-698098K), 01 Jun 2011*

Hav Pradeep Kumar Dubey (No. 13963743N now JC-698099M), 01 Jun 2011*

Hav Suresh Sah (No. 13964409Y now JC-698100W), 01 Jun 2011*

Hav Baidya Nath Ghosh (No. 13964488Y now JC-698101Y), 01 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allces)

Hav Suresh Singh (No. 13964509K now JC-698102F), 01 Jul 2011*

Hav Gopal Ram (No. 13964540W now JC-698103K), 01 Jul 2011*

Hav Dasharathi Pradhan (No. 13964568W now JC-698104K), 01 Jul 2011*

Hav Dilip Kumar Mahapatra (No. 13964569Y now JC-698105P), 01 Jul 2011*

Hav Gaj Mohan Lal (No. 13964666W now JC-698106X), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allces)

Hav K Venkata Ramana (No. 13964094A now JC-698139H), 01 Aug 2011*

Hav Malam Singh (No. 13964814W now JC-698140X), 01 Aug 2011*

Hav Md Abdul Wadud (No. 13964806X now JC-698141A), 01 Aug 2011*

Hav Randhir Singh (No. 13964879K now JC-698142H), 01 Aug 2011*

Hav Narendra Prasad Dubey (No. 13964859W now JC-698143L), 01 Aug 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allces)

KULWANT RANA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 560, dated 4th November 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMED CORPS

To be Subs Ris

Nb Ris Labhala Bhaskara Rao (JC-243246W), 28 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raj Kumar (JC-243023Y), 07 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/SKT Jaswant Singh (JC-242165K), 01 Mar 2011

Nb Ris/Clk Rajinder Singh (JC-242363P), 01 Mar 2011

Nb Ris/Clk Ramayan Prasad (JC-242463A), 01 Mar 2011

Nb Ris Ram Niwas (JC-243510Y), 07 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk Umesh Prasad Singh (JC-242465L), 01 Apr 2011

Nb Ris/Clk Rabindra Nath Mandal (JC-242517W), 01 Apr 2011

Nb Ris/Clk Sanjit Kumar Bhowmick (JC-242519F), 01 Apr 2011

Nb Ris Surinder Kumar (JC-242628N), 13 Apr 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sube Singh (JC-243224X), 01 Apr 2011

Nb Ris Anil Kumar (JC-244153N), 03 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Saminder Singh (JC-243432M), 18 Apr 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 14 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Maksud Khan (JC-244004A), 22 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 14 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surinder Singh (JC-242414K), 25 Apr 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 20 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sanjeev Kumar (JC-243544M), 01 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 20 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Anil Kumar (JC-243921X), 01 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 20 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Balbir Singh (JC-243654F), 10 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 23 Apr 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk Ganesh Chandra Panda (JC-242520W), 12 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Clk Sarat Chandra Naik (JC-242521Y), 01 May 2011

Nb Ris/Clk Nilakantha Sardul Singh (JC-242528H), 01 May 2011

Nb Ris Surinder Kumar (JC-243073K), 01 May 2011

Nb Ris Dasan VK (JC-243549L), 01 May 2011*

Nb Ris Raghunath Singh Champawat (JC-243786P), 02 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Narendra Singh Tomar (JC-243742X), 18 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 09 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Om Prakash Singh (JC-243072F), 28 May 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 20 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gopal Dass Sharma (JC-243223P), 22 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 31 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bhanwar Singh (JC-243808H), 03 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 31 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surendra Singh Rathor (JC-244103H), 18 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 31 May 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jia Lal (JC-243207X), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jatinder Paul (JC-243498H), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Santosh Kumar Singh (JC-244163X), 01 Jun 2011*

Nb Ris Satyabir (JC-244188K), 22 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Vijay Singh (JC-244241K), 21 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rambir Singh (JC-244410A), 11 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bhupender Singh (JC-244649H), 05 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Harendra Singh (JC-244723Y), 29 Jun 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Daleep Singh Chandel (JC-244243P), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 30 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rakesh Kumar Jaswal (JC-244247L), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 30 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Madan Pal Singh (JC-244257P), 02 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 30 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Pawan Kumar (JC-244379Y), 01 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 30 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Harinder Singh (JC-242904L), 09 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Om Prakash (JC-243114H), 04 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ramesh Singh (JC-243386H), 05 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gurmeet Singh (JC-243590F), 12 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Chander (JC-243790X), 04 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surjit Singh (JC-243903P), 04 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rambir Singh (JC-243958Y), 01 Jul 2011*

Nb Ris Hira Lal Kushwaha (JC-243609P), 04 Jul 2011*

Nb Ris Surinder Singh (JC-243550A), 15 Jul 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 07 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Yash Pal (JC-242647Y), 01 Aug 2011

Nb Ris Aji Kumar K S (JC-244012Y), 01 Aug 2011

SUBHABARTA KARMAKAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 561, dated 4th November 2011—The President is pleased to permit the undermentioned Officers to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform:—

TERRITORIAL ARMY

Retirement

Lt Col BBS Chandra (TA-42125), Inf, 31 May 2011 (AN)

Lt Col Sanjay Kumar (TA-42142), Inf, 31 Jan 2011 (AN)

Lt Col Navrang Saini (TA-41954), Inf, 31 Mar 2011 (AN)

V RAJARAM

Under Secy

ARMY BRANCH

No. 562, dated 8th November 2011—The President is pleased to permit the undermentioned Officers to Discharge from TA Service:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

Discharge

Capt Avtar Singh, SM (TA-42277), Inf, 01 Feb 2011

Capt SS Moghe (TA-42553), Inf, 07 Nov 2010

Capt AK Parmar (TA-42555), Inf, 02 Nov 2010

V RAJARAM

Under Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011